



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 6—अप्रैल 12, 2013 (चैत्र 16, 1935)

No. 14]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 6—APRIL 12, 2013 (CHAITRA 16, 1935)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

### [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the  
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 अप्रैल 2013

सेना शाखा

सं. 137, दिनांक 13 मार्च 2013--राष्ट्रपति निम्नलिखित पद पर सहर्ष  
नियुक्त करते हैं :--

नियमित सेना

अल्प सेवा आयोग

लेफ्टि के पद पर

निम्नलिखित 41 लेडी कैडेट्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग-07  
पाठ्यक्रम के हैं, को सेनानुदेश 1/एस/92 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत  
(जो कि भारत सरकार के पत्र सं. बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए)  
921/डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) ले के  
पद पर अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है।  
सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही उनको दिनांक 17 मार्च  
2012 से 10 वर्ष के लिए अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान  
किया जाता है। उन्हें दिनांक 20 मार्च 2011 से विशेष सेनानुदेश 10/96

(सूची पत्र सं. 9 दिनांक 01 जून 1996) के अन्तर्गत तकनीकी योग्यता  
हेतु एक वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा प्रोन्नति के लिये दी  
जाती है :--

एसएस नं., नाम तथा आर्म/सर्विस

(एसएस-45425एल) गगनदीप कौर, सिग्नल

(एसएस-45426एन) इला वोहरा, सिग्नल

(एसएस-45433के) दीप्ति यादव, ईएमई

(एसएस-45435पी) वैशाली, सिग्नल

(एसएस-45437ए) सुचिका, इंजीनियर्स

(एसएस-45439एल) रूचि भदूला, ईएमई

(एसएस-45440ए) अर्चिस सबनीस, इंजीनियर्स

(एसएस-45443एन) श्रुति पाटील, इंजीनियर्स

(एसएस-45445वाई) कनिका सैनी, सिग्नल

(एसएस-45447के) दीप्ति भट्ट, ईएमई

(एसएस-45449पी) श्वेता गुलेरिया, सिग्नल  
 (एसएस-45455एच) वैलेटीना जे डीमेलो, ईएमई  
 (एसएस-45461डब्ल्यू) परनीका सांगवान, सिग्नल  
 (एसएस-45462वाई) दिव्या मरवाहा, ईएमई  
 (एसएस-45468ए) स्मिता कलवानिया, इंजीनियर्स  
 (एसएस-45471ए) पारवथी राज, ईएमई  
 (एसएस-45473एल) सिद्धी ओझा, ईएमई  
 (एसएस-45475डब्ल्यू) ऋचा यादव, ईएमई  
 (एसएस-45477एफ) गगनदीप कौर, सिग्नल  
 (एसएस-45479एम) नम्रता जोधा, ईएमई  
 (एसएस-45480एफ) तरूणी मोहन, ईएमई  
 (एसएस-45481के) पारूल अरोड़ा, ईएमई  
 (एसएस-45485ए) हिमानी प्रकाश, सिग्नल  
 (एसएस-45486एच) वर्षा जैन, ईएमई  
 (एसएस-45489डब्ल्यू) प्रेरणा क्षेत्री, ईएमई  
 (एसएस-45492डब्ल्यू) बन्दना सलाथिया, ईएमई  
 (एसएस-45500के) अन्जू यादव, इंजीनियर्स  
 (एसएस-45502पी) कल्पना शरण, सिग्नल  
 (एसएस-45503एक्स) चारू, ईएमई  
 (एसएस-45508डब्ल्यू) मोनिका मलिक, ईएमई  
 (एसएस-45509वाई), नेहा चौहान, ईएमई  
 (एसएस-45511डब्ल्यू) रूपिन्दर कौर कालकट, ईएमई  
 (एसएस-45514के) परमवीर कौर, सिग्नल  
 (एसएस-45520एक्स) सिंडी दियोरी, ईएमई  
 (एसएस-45521ए) नेहा सिंह, ईएमई  
 (एसएस-45526वाई) हरप्रीत कौर बाहिया, सिग्नल  
 (एसएस-45529एम) श्वेता पाण्डेय, ईएमई  
 (एसएस-45530एफ) सुगंध सिरोही, ईएमई  
 (एसएस-45537एल) अंशिका मिश्रा, सिग्नल  
 (एसएस-45539डब्ल्यू) संगीता नाथ, ईएमई  
 (एसएस-45543वाई) नेहेल शाहनावाज, इंजीनियर्स

निम्नलिखित 114 जेन्टलमैन कैडेट्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग-93 कार्यक्रम के हैं, ने छः मास का समय जो कि 17 मार्च 2012 को शुरू हुआ था, ले के पद पर पूरा कर लिया है। उनको उसी दिनांक 17 मार्च 2012 से 10 वर्ष के लिए लेफ्टि के पद पर अल्पकालीन सेवा आयोग विशेष सेनानुदेश 3/एस/98, यथासंशोधित, के अन्तर्गत (जो कि भारत

सरकार के पत्र सं. बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) 921/डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) प्रदान किया जाता है :--

(एसएस-45262एच) चेना राम बैरा, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45263एल) हिमांशु बडोतरा, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45264एन) आलोक शामराव गायकवाड़, एविऐशन  
 (एसएस-45266वाई) प्रसाद गणेश महाडीक, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45267एफ) नरेन्द्र सिंह वाल्दिया, इंजीनियर्स  
 (एसएस-45268के) शरत चिगाखम, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45269एम) आशीश कुमार, एसी  
 (एसएस-45270एफ) जसदेव सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45271के) म्हस्कर सोमदत्त दिलीप, आर्टी  
 (एसएस-45272एम) भानु प्रताप सिंह, ईएमई  
 (एसएस-45273पी) क्षितिज नेगी, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45275ए) एस लून कि, आर्टी  
 (एसएस-45276एच) परविन्द्र डागर, मैक  
 (एसएस-45281एन) अविनाश कुमार, आर्टी  
 (एसएस-45282डब्ल्यू) रवि कुमार चौधरी, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45283वाई) अभिनव छेत्री, एविऐशन  
 (एसएस-45285के) अंकुर कुमार सिंह, एओसी  
 (एसएस-45288एक्स) राहुल रावत, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45289ए) समरेन्द्र सिंह, एएडी  
 (एसएस-45290पी) प्रतर्दन गोपाल साकलकर, आर्टी  
 (एसएस-45291एक्स) देशपांडे आश्विन उदय, आर्टी  
 (एसएस-45292ए) विभोर जोशी, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45294एल) कुणाल श्रीवास्तव, आर्टी  
 (एसएस-45295एन) हरिहरन पिल्ले, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45296डब्ल्यू) कुलजीत सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45297वाई) अभिषेक शर्मा, एएडी  
 (एसएस-45298एफ) चिंगागबम संजित सिंह, एससी  
 (एसएस-45299के) सोनम नामजाल, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45300एन) लाईनल जोजफ विलकिनस, एसी  
 (एसएस-45301डब्ल्यू) के नागेशवर राव, आर्टी  
 (एसएस-45303एफ) छयो छिरिड लेप्चा, इन्फैन्ट्री

(एसएस-45304के) प्रवीण हुड्डा, एएडी  
 (एसएस-45305एम) अरहत पंत, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45306पी) उमेश लाम्बा, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45307एक्स) पुष्पिन्दर सिंह वर्मा, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45309एच) भूपेन्द्र सिंह अरोरा, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45310एक्स) अमरजीत कुमार, आर्टी  
 (एसएस-45312एच) लामतिनलाल, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45313एल) डैनी मैथ्यू, एओसी  
 (एसएस-45314एन) मनीष मिश्रा, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45315डब्ल्यू) अभिषेक भदौरिया, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45316वाई) दीपक जोशी, एससी  
 (एसएस-45317एफ) आनंद कुमार ठाकुर, आर्टी  
 (एसएस-45319एम) भास्कर गर्ग, एविएशन  
 (एसएस-45320एफ) हर्ष वर्धन डोगरा, मैक  
 (एसएस-45322एम) नरेन्द्र सिंह नेगी, इंजीनियर्स  
 (एसएस-45326एच) सत्यम शेखर, आर्टी  
 (एसएस-45329डब्ल्यू) आशीष मिनोचा, सिग्नल  
 (एसएस-45330एल) सोलनकर सिद्राम पांडुरंग, आर्टी  
 (एसएस-45332डब्ल्यू) अंगदजीत सिंह पुनिया, आर्टी  
 (एसएस-45334एफ) विवेक कुमार सिंह, आर्टी  
 (एसएस-45336एम) रमेश चन्द्र सुयाल, आर्टी  
 (एसएस-45337पी) संजय कुमार कतबु, एससी  
 (एसएस-45338एक्स) बैजु बाबु, एविएशन  
 (एसएस-45339ए) राहुल रैना, ईएमई  
 (एसएस-45340पी) अनिल कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45342ए) योगेश कुमार लोहनी, एसी  
 (एसएस-45344एल) सुमंत कौशिक, एससी  
 (एसएस-45345एन) केतन कुमार सग्गड, मैक  
 (एसएस-45347वाई) किरन मय मंडल, ईएमई  
 (एसएस-45348एफ) प्रतीक शर्मा, एएडी  
 (एसएस-45349के) सिमरप्रीत सिंह, आर्टी  
 (एसएस-45350वाई) ध्रुव चन्द्रा, आर्टी  
 (एसएस-45351एफ) राहुल सिंह, एओसी  
 (एसएस-45352के) दिग्विजय सिंह कटोच, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45355एक्स) दीपक सिंह बिष्ट, सिग्नल

(एसएस-45356ए) कुलकर्णी सुमित सुभाष, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45357एच) भावेश गौतम, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45359एन) रोहित शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45360एच) लोलीत चन्द्र देउरी, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45361एल) किरण जाधव, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45362एन) वर्चुईथान रगुई, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45364वाई) अनूप कुमार सिंह, आर्टी  
 (एसएस-45366के) ए प्रियाव्रता सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45367एम) शांतनु रॉय, आर्टी  
 (एसएस-45368पी) भानु प्रताप सिंह, आर्टी  
 (एसएस-45371पी) अभिषेक तिवारी, एससी  
 (एसएस-45373ए) शशांक शेखर सारंगी, आर्टी  
 (एसएस-45376एन) हिमांशु ओहलान, इंजीनियर्स  
 (एसएस-45378वाई) अरविन्द विकास जी, एविएशन  
 (एसएस-45379एफ) शिव प्रताप सिंह चौहान, एसी  
 (एसएस-45382एफ) धन्नजय सिंह इन्दा, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45383के) निंगथौजम दिनेश सिंह, एविएशन  
 (एसएस-45384एम) सौरभ सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45385पी) पाथरकर आनंद शरद, एविएशन  
 (एसएस-45386एक्स) सोबम किनोबाबु सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45387ए) सनी तोमर, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45389एल) अर्जुन आर जे, ईएमई  
 (एसएस-45391एच) विकास शुक्ला, मैक  
 (एसएस-45392एल) विनय प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45394डब्ल्यू) सौम्य मुखर्जी, एसी  
 (एसएस-45395वाई) मोहम्मद नौशाद, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45396एफ) प्रीतम मोहंती, आर्टी  
 (एसएस-45397के) प्रसेनजीत धर, आर्टी  
 (एसएस-45398एम) अशिष दलाल, आर्टी  
 (एसएस-45399पी) हर्ष वर्धन कुमार, आर्टी  
 (एसएस-45400वाई) मोहसिन कमल, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45402के) सूर्य कान्त सिंह, इंजीनियर्स  
 (एसएस-45403एम) संगीत वी के, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45406ए) हेमंत कुमार शुक्ला, आर्टी  
 (एसएस-45407एच) आलोक एच के, इन्फैन्ट्री

(एसएस-45408एल) अंकुर मिश्रा, आर्टी  
 (एसएस-45409एन) राहुल तिवारी, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45411एल) प्रदीप शर्मा, एसससी  
 (एसएस-45412एन) आकाश नेगी, एएडी  
 (एसएस-45413डब्ल्यू) नीरज यादव, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45414वाई) सुरेश शुल्लार्ई, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45415एफ) आनंद कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45418पी) रवि मिश्रा, आर्टी  
 (एसएस-45419एक्स) प्रीयम इकबाल, एसी  
 (एसएस-45420एम) विपुल पाण्डेय, एओसी  
 (एसएस-45421पी) विकास सिंह, एविएशन  
 (एसएस-45423ए) प्रद्युम्न कुमार अग्निहोत्री, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45424एच) हेमन्त नांगिया, एएडी

निम्नलिखित 43 लेडी कैडेट्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग-07 पाठ्यक्रम के हैं, ने छः मास का समय जो कि 17 मार्च 2012 को शुरू हुआ था, ले के पद पर पूरा कर लिया है। उनको उसी दिनांक 17 मार्च 2012 से 10 वर्ष के लिए लेफ्टि के पद पर अल्पकालीन सेवा आयोग विशेष सेनानुदेश 3/एस/98, यथासंशोधित, के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र सं. बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) 921/डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) प्रदान किया जाता है :-

(एसएस-45265डब्ल्यू) अर्पणा भाऊ, एसससी  
 (एसएस-45274एक्स) दीपशिखा जोशी, एओसी  
 (एसएस-45277एल) अदिती दाश, एओसी  
 (एसएस-45278एन) अबिन्दिता बिष्ट, जैग  
 (एसएस-45279डब्ल्यू) टीना, एसससी  
 (एसएस-45280एल) कृति, जैग  
 (एसएस-45284एफ) ज्योति शर्मा, जैग  
 (एसएस-45286एम) मोहिता मल्होत्रा, एसससी  
 (एसएस-45287पी) इशीता सूद, एसससी  
 (एसएस-45293एच) दीप शिखा शर्मा, एसससी  
 (एसएस-45302वाई) रूचि अग्रवाल, इन्ट  
 (एसएस-45308ए) स्वाति श्रीवल्लि धारवाडकर, इन्ट  
 (एसएस-45311ए) मानसी शिरीष गजेन्द्रगडकर, एओसी  
 (एसएस-45318के) रूचिका शारदा, जैग  
 (एसएस-45323पी) नवनीत कौर, एओसी

(एसएस-45324एक्स) अर्कजा नेगी, एओसी  
 (एसएस-45325ए) ऋद्धिशी शर्मा, जैग  
 (एसएस-45327एल) चेतना रावत, एसससी  
 (एसएस-45328एन) अंजु कुमारी, एओसी  
 (एसएस-45333वाई) निशा, इन्ट  
 (एसएस-45335के) श्रुति रावत, जैग  
 (एसएस-45343एच) इन्दिरा लायश्रम, एसससी  
 (एसएस-45346डब्ल्यू) राजलक्ष्मी पी, एसससी  
 (एसएस-45353एम) नेहा घई, इन्ट  
 (एसएस-45354पी) मंजू गुप्ता, जैग  
 (एसएस-45358एल) सनोबर खान, एसससी  
 (एसएस-45363डब्ल्यू) प्रिया पालनी, एओसी  
 (एसएस-45369एक्स) आरती तिवारी, एसससी  
 (एसएस-45370एम) जूही बरूआ, एओसी  
 (एसएस-45372एक्स) शालिनी नेगी, एसससी  
 (एसएस-45374एच) खुशबू कंवर, एसससी  
 (एसएस-45375एल) मोनल रे, जैग  
 (एसएस-45380डब्ल्यू) चित्रा पाण्डेय, एसससी  
 (एसएस-45388एच) दीपाली, जैग  
 (एसएस-45390ए) पूर्वी गुप्ता, एओसी  
 (एसएस-45393एन) नवीना शेखावत, एसससी  
 (एसएस-45401एफ) अप्राजिता भट्टाचार्य, इन्ट  
 (एसएस-45404पी) पूजा, एसससी  
 (एसएस-45405एक्स) पर्णिका लोमस, जैग  
 (एसएस-45410एच) निहारिका बडोत्रा, एओसी  
 (एसएस-45416के) नेहा शर्मा, एविएशन  
 (एसएस-44417एम) प्रीति मिश्रा, जैग  
 (एसएस-45422एक्स) शिल्पा चौधरी, एओसी

निम्नलिखित 74 जेन्टलमैन कैडेट्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग 36 पाठ्यक्रम के हैं, को सेनानुदेश 1/93 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) 921/डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) ले के पद पर अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही उनको दिनांक 17 मार्च 2012 से 10 वर्ष के लिए अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। उन्हें दिनांक 20 मार्च 2011 से विशेष सेनानुदेश 1/एस/94,

यथासंशोधित, के अन्तर्गत तकनीकी योग्यता हेतु एक वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा प्रोन्नति के लिए दी जाती है :--

(एसएस-45427डब्ल्यू) पंकज रावल, मैक  
 (एसएस-45428वाई) देवेन्द्र सिंह, मैक  
 (एसएस-45429एफ) जैमर द वजदी, एसी  
 (एसएस-45430डब्ल्यू) रजत कुमार पांडे, आर्टी  
 (एसएस-45431वाई) नन्दा कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45432एफ) वरूण उपाध्याय, इंजीनियर्स  
 (एसएस-45434एम) मैकी जुनेजा, इन्ट  
 (एसएस-45436एक्स) अनुज शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45438एच) मनीष कुमार सिंह, इंजीनियर्स  
 (एसएस-45441एच) रवि शुक्ला, ईएमई  
 (एसएस-45442एल) हिमान्शु बालियान, एससी  
 (एसएस-45444डब्ल्यू) उमाशंकर नांजजप्पा, इंजीनियर्स  
 (एसएस-45446एफ) मनजीत तक्षक, सिग्नल  
 (एसएस-45448एम) कैलाश कुमार राई, इंजीनियर्स  
 (एसएस-45450के) अंकित देवराडी, एओसी  
 (एसएस-45451एम) सूरज कुमार रघुवैशी, सिग्नल  
 (एसएस-45452पी) कार्तिक हरि, ईएमई  
 (एसएस-45453एक्स) अमरिनंदर सिंह ग्रेवाल, ईएमई  
 (एसएस-45454ए) मनिष दुबे, सिग्नल  
 (एसएस-45456एल) सुमित शर्मा, ईएमई  
 (एसएस-45457एन) रोहित राठी, ईएमई  
 (एसएस-45458डब्ल्यू) पदम सिंह, इंजीनियर्स  
 (एसएस-45459वाई) जी वरण, एएडी  
 (एसएस-45460एन) जसमीत सिंह, ईएमई  
 (एसएस-45463एफ) जयेश न देसाई, इंजीनियर्स  
 (एसएस-45464के) नितेश कुमार, सिग्नल  
 (एसएस-45465एम) अभिषेक पाण्डेय, एओसी  
 (एसएस-45466पी) हिमांशु बलोधी, एएडी  
 (एसएस-45467एक्स) प्रवीण कुमार मिश्रा, आर्टी  
 (एसएस-45469एच) ऋतु राज, इंजीनियर्स  
 (एसएस-45470एक्स) अमरजीत सिंह, सिग्नल  
 (एसएस-45472एच) सुधीर कुमार, सिग्नल

(एसएस-45474एन) कृष्ण कुमार, मैक  
 (एसएस-45476वाई) बि एस पदमाकर नागिरेडडी, इंजीनियर्स  
 (एसएस-45478के) दिपांकर हयौकि, इंजीनियर्स  
 (एसएस-45482एम) पीयूष पांडे, इंजीनियर्स  
 (एसएस-45483पी) सुजीत चौधरी, ईएमई  
 (एसएस-45484एक्स) निशांत मेहता, इंजीनियर्स  
 (एसएस-45487एल) राज कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45488एन) अंगडी राजाशेखर, इन्ट  
 (एसएस-45490एल) अंकुश शर्मा, सिग्नल  
 (एसएस-45491एन) विक्रांत, ईएमई  
 (एसएस-45493वाई) सुधांशु राय, ईएमई  
 (एसएस-45494एफ) धर्मेन्द्र चन्देल, सिग्नल  
 (एसएस-45495के) महर्ष शाह, ईएमई  
 (एसएस-45496एम) अक्षय सेठी, इंजीनियर्स  
 (एसएस-45497पी) स्वीकार भारद्वाज, आर्टी  
 (एसएस-45498एक्स) सारंग वामोरकर, सिग्नल  
 (एसएस-45504ए) सुब्रत देववर्मा, इंजीनियर्स  
 (एसएस-45505एच) सन्दीप शर्मा, सिग्नल  
 (एसएस-45506एल) दुर्गेश नंदकुमार वनस्कर, इंजीनियर्स  
 (एसएस-45507एन) पवन कुमार, ईएमई  
 (एसएस-45510एन) राहुल धामा, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45512वाई) महावीर प्रसाद जाँगीड, सिग्नल  
 (एसएस-45513एफ) अंशुमान राय, एससी  
 (एसएस-45515एम) गौरव टाक, इंजीनियर्स  
 (एसएस-45516पी) ताडफले ओंकार सतीश, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45517एक्स) सुनिल कुमार सुथार, ईएमई  
 (एसएस-45518ए) अतुल विक्रम सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45522एच) रीतेश कुमार मिश्रा, आर्टी  
 (एसएस-45523एल) हितेश इस्सार, एससी  
 (एसएस-45524एन) र विगनेश, इंजीनियर्स  
 (एसएस-45525डब्ल्यू) नितेश चौहान, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-45527एफ) तारिक रजा अन्सारी, सिग्नल  
 (एसएस-45528के) सूरज जोशी, एसी  
 (एसएस-45531के) श्रेष्ठ जोशी, एसी  
 (एसएस-45533पी) संतोष कुमार, इंजीनियर्स

- (एसएस-45534एक्स) स्नेह सिंह, इंजीनियर्स  
 (एसएस-45535ए) एनटोनी निशांत, आर्टी  
 (एसएस-45536एच) देशमुख रविराज सम्भाजीराव, ईएमई  
 (एसएस-45538एन) सन्नी सिंह, ईएमई  
 (एसएस-45540एल) अंशुल ठाकुर, इंजीनियर्स  
 (एसएस-45541एन) जतिन खुराना, सिग्नल  
 (एसएस-45544एफ) सिधार्थ मोहन, ईएमई

राहुल सांगवान  
 ले कर्नल  
 सहायक सेना सचिव 8बी

सेना शाखा

सं. 138, दिनांक 13 मार्च 2013--प्रति निम्नलिखित पद पर  
 सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

नियमित सेना  
 अल्प सेवा आयोग  
 ले के पद पर

निम्नलिखित नौ जेन्टलमैन कैडेट्स जो अल्प सेवा आयोग-92 पाठ्यक्रम के हैं, ने छः मास का समय जो कि दिनांक 17 सितम्बर 2011 से आरंभ हुआ था, ले के पद पर पूरा कर लिया है, उनको उसी तिथि दिनांक 17 सितम्बर 2011 से 10 वर्ष के लिए ले के पद पर अल्पकालीन सेवा आयोग विशेष सेनानुदेश 3/एस/98, यथासंशोधित, के अंतर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पीसी/एजी/पीएस-2(ए) 921/डी (एजी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) प्रदान किया जाता है :-

अंकुश सिंह (एसएस-44783के), एससी की वरिष्ठता पी दिव्य प्रणीत (एसएस-44782एफ), इन्फैन्ट्री के नीचे, गगन दीप सिंह (एसएस-44796एफ), आर्टी की वरिष्ठता प्रवीन कुमार भोर (एसएस-44790ए), आर्टी के नीचे, राहुल सौदा (एसएस-44799पी), इन्फैन्ट्री की वरिष्ठता विशेष पंवार (एसएस-44797के), इन्फैन्ट्री के नीचे, गौरव सिंह लोहामोर (एसएस-44833के), इन्फैन्ट्री की वरिष्ठता सिनाम पूर्णचन्द्रा (एसएस-44832एफ), इन्फैन्ट्री के नीचे, विक्रम शर्मा (एसएस-44841एच), इन्फैन्ट्री की वरिष्ठता कुलकर्णी आशीश नन्द किशोर (एसएस-44840ए), एविएशन के नीचे, सलीम जाफर (एसएस-44849पी), इन्फैन्ट्री की वरिष्ठता मनविंदर सिंह (एसएस-44846एफ), इंजीनियर्स के नीचे, कौस्तूब प्रकाशकुमार (एसएस-44861डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री की वरिष्ठता राजकुमार जसवनत सिंह (एसएस-44860एन), आर्टी के नीचे, विक्रान्त कुमार सिंह (एसएस-44914के), एससी की वरिष्ठता कौशिक राय (एसएस-44913एफ), इन्फैन्ट्री के नीचे और अधिराज चौधरी (एसएस-44971एल), आर्टी की वरिष्ठता सिद्धार्थ (एसएस-44970एच), जेग के नीचे प्रकाशित किये जायें, जिनके नाम भारत के राजपत्र में दिनांक 30 जून 2012 को प्रकाशित हो चुके हैं

निम्नलिखित एक जैन्टलमैन कैडेट को जो अल्पकालीन सेवा आयोग (तकनीकी)-35 पाठ्यक्रम के हैं, को सेनानुदेश 1/93 के नियम तथा शर्तों के अंतर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पीसी/एजी/पीएस-2(ए) 921/डी (एजी)) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) ले के पद पर अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही उनको दिनांक 17 सितम्बर 2011 से 10 वर्ष के लिए अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। उन्हें दिनांक 20 सितम्बर 2009 से विशेष सेनानुदेश 1/एस/94 (संशोधित) के अंतर्गत तकनीकी योग्यता हेतु दो वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा प्रोन्नति के लिए, दी जाती है :-

सुनील चैटर्जी (एसएस-45086डब्ल्यू), ईएमई की वरिष्ठता सौरभ कुमार (एसएस-45085एन), सिग्नल के नीचे, प्रकाशित किया जाये, जिनका नाम भारत के राजपत्र में दिनांक 30 जून 2012 को प्रकाशित हो चुका है

निम्नलिखित एक महिला अधिकारी ने अल्प सेवा आयोग (परखाधीन) का छः मास का समय जो कि दिनांक 17 सितम्बर 2011 से आरंभ हुआ था, पूरा कर लिया है उनको उसी तिथि दिनांक 17 सितम्बर 2011 से सेनानुदेश 1/एस/92 के अंतर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पीसी/एजी/पीएस-2(ए) 921/डी (एजी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) ले के पद पर 10 वर्ष के लिए अल्प सेवा प्रदान किया जाता है।

सपना गोविंद सावंत (एसएस-44953एच), एएडी की वरिष्ठता ज्योति शर्मा (एसएस-44951एक्स), एससी के नीचे प्रकाशित किया जाए, जिनका नाम भारत के राजपत्र में दिनांक 30 जून 2012 को प्रकाशित हो चुका है

विशेष आयोग

निम्नलिखित 41 जैन्टलमैन कैडेट्स जो कि एससीओ-28 पाठ्यक्रम के हैं, को सेना अनुदेश 5/97 के अंतर्गत संलिखित सेना सेवा में 09 जून 2012 से लेफ्टिनेंट के पद पर विशेष आयोग प्रदान किया जाता है :-

(एस-835) (सं. 9513144एक्स), आईसी, विनोद कुमार शर्मा (एससी-00675ए), एस

(एस-822) (सं. 15317402वाई), इंजीनियर्स, अमिर्थाथन जे (एससी-00676एच), इन्फैन्ट्री

(एस-854) (सं. 15568919डब्ल्यू), इंजीनियर्स, रविन्द्र आर सालुखे (एससी-00677एल), इंजीनियर्स

(एस-852) (सं. 2610911एन), इन्फैन्ट्री, एजिलारसन बी (एससी-00678एन), आर्टी

(एस-856) (सं. 14428691एक्स), आर्टी, किरशन कुमार, एसएम (एससी-00679डब्ल्यू), एओसी

(एस-827) (सं. 15325949डब्ल्यू), इंजीनियर्स, उमा शंकर पिल्लै  
(एससी-00680एल), इन्फैन्ट्री

(एस-843) (सं. 4080158एम), इन्फैन्ट्री, संजय सिंह रावत  
(एससी-00681एन), ईएमई

(एस-851) (सं. 5850332डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री, सुशान्त थापा  
(एससी-00682डब्ल्यू), इन्ट

(एस-844) (सं. 13765166एफ), इन्फैन्ट्री, जोगिन्द्र सिंह  
(एससी-00683वाई), मैक इन्फैन्ट्री

(एस-848) (सं. 13768192एन), इन्फैन्ट्री, बृज लाल  
(एससी-00684एफ), एएडी

(एस-823) (सं. 6942209एन), एओसी, अमित सिंह  
(एससी-00685के), मैक इन्फैन्ट्री

(एस-830) (सं. 9513349एम), आईसी, प्रदीप कुमार  
(एससी-00686एम), आर्टी

(एस-862) (सं. 14666997एन), ईएमई, विकास शाही  
(एससी-00687पी), ईएमई

(एस-824) (सं. 4570178पी), इन्फैन्ट्री, राजदीप  
(एससी-00688एक्स), एससी

(एस-841) (सं. 15695115ए), सिग्नल्स, जे गोपू (एससी-  
00689ए), सिग्नल्स

(एस-845) (सं. 4085384एन), इन्फैन्ट्री, बलवन्त सिंह  
(एससी-00690पी), इन्फैन्ट्री

(एस-838) (सं. 15783674एम), एएडी, सौरभ मल्लिकार्जुन  
(एससी-00691एक्स), आर्टी

(एस-847) (सं. 15678696एम), सिग्नल्स, प्रदीप सिंह रावल  
(एससी-00692ए), इन्फैन्ट्री

(एस-840) (सं. 2606144एच), इन्फैन्ट्री, टि एकांबर रेड्डी  
(एससी-00693एच), इंजीनियर्स

(एस-829) (जेसी-643080एन), एससी, नितिन जमवाल  
(एससी-00694एल), इन्फैन्ट्री

(एस-850) (सं. 15678795पी), सिग्नल्स, संजय कुमार सामल  
(एससी-00695एन), आर्टी

(एस-825) (सं. 3198783पी), इन्फैन्ट्री, नवीन कुमार  
(एससी-00696डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री

(एस-859) (सं. 13770297डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री, आशीष गुरूंग  
(एससी-00697वाई), एएडी

(एस-833) (सं. 15150926डब्ल्यू), आर्टी, किशोर वर्गीस  
(एससी-00698एफ), इन्फैन्ट्री

(एस-834) (सं. 6395821एफ), एससी, कुन्दन कुमार  
(एससी-00699के), इंजीनियर्स

(एस-857) (सं. 15484201एफ), एसी, दीपक कुमार  
(एससी-00700एन), इन्फैन्ट्री

(एस-836) (सं. 16112387एक्स), इंजीनियर्स, शंकर वी बोरगावी  
(एससी-00701डब्ल्यू), इंजीनियर्स

(एस-858) (सं. 14423499के), आर्टी, बीरेश्वर डेका  
(एससी-00702वाई), आर्टी

(एस-864) (सं. 4364890के), इन्फैन्ट्री, सेवांग दोरजी  
(एससी-00703एफ), इन्फैन्ट्री

(एस-863) (सं. 9513520ए), आईसी, संतोष कुमार तिवारी  
(एससी-00704के), सिग्नल्स

(एस-837) (सं. 15578043डब्ल्यू), इंजीनियर्स, जय सिंह  
(एससी-00705एम), आर्टी

(एस-860) (सं. 14641029एल), ईएमई, विशाल शाही  
(एससी-00706पी), ईएमई

(एस-842) (सं. 15663229एक्स), सिग्नल्स, राकेश पाणी  
(एससी-00707एक्स), सिग्नल्स

(एस-853) (सं. 15492900एफ), एसी, हरी चन्द्रा  
(एससी-00708ए), आर्टी

(एस-861) (सं. 5357270एल), इन्फैन्ट्री, पंकज कुमार  
(एससी-00709एच), इन्फैन्ट्री

(एस-832) (जेसी-379532एक्स), सिग्नल्स, भास्कर विजय तुकाराम  
(एससी-00710एक्स), इन्फैन्ट्री

(एस-839) (सं. 15329496एन), इंजीनियर्स, गुरविन्दर सिंह नागरा  
(एससी-00711ए), आर्टी

(एस-849) (सं. 9513557एफ), आईसी, गौरव जीत  
(एससी-00712एच), एसी

(एस-831) (जेसी-272645एच), आर्टी, अजिमोन सी ए  
(एससी-00713एल), एओसी

(एस-855) (जेसी-643086पी), एससी, लाड उत्कर्ष वसन्तराव  
(एससी-00714एन), एससी

(एस-846) (सं. 15469699पी), एसी, अनिल कुमार  
(एससी-00715डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री

नीरज कुमार  
मेजर  
एएमएस 8बी

## सेना विभाग

सं. 139, दिनांक 13 मार्च 2013--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

## नियमित सेना

## इन्फैन्ट्री

## महार रेजीमेंट

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार लिपिक शिव नाथ सिंह (जेसी-569667पी), 01 जुलाई 2012

सूबेदार लिपिक अब्धेश कुमार (जेसी-569618एम), 01 अक्टूबर 2012

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक रामाकांत (जेसी-570233एक्स), 17 मार्च 2012\*

\*(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2012)

नायब सूबेदार लिपिक चंदन सिंह (जेसी-570224ए), 30 जून 2012#

नायब सूबेदार लिपिक सुभाष चंद (जेसी-570225एच), 02 अप्रैल 2012#

नायब सूबेदार लिपिक कमल सिंह अफरिया (जेसी-570251के), 02 अप्रैल 2012#

नायब सूबेदार लिपिक पाखारे गनपति तथेप्पा (जेसी-570271एक्स), 01 अप्रैल 2012

नायब सूबेदार लिपिक राकेश कुमार (जेसी-570272ए), 01 अप्रैल 2012

नायब सूबेदार लिपिक जगदीश प्रसाद शर्मा (जेसी-570273ए), 01 अप्रैल 2012

नायब सूबेदार लिपिक आर सत्यावासगम (जेसी-570343डब्ल्यू), 02 अप्रैल 2012#

नायब सूबेदार लिपिक शशि शेखर पांडे (जेसी-570344वाई), 03 अप्रैल 2012#

नायब सूबेदार लिपिक अतारुल हक मंडल (जेसी-570345एफ), 01 अप्रैल 2012

#(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2012)

नायब सूबेदार लिपिक प्रभाकर साहु (जेसी-570121एफ), 01 जून 2012

नायब सूबेदार लिपिक शैलेंद्रा सिंह रावत (जेसी-570369एल), 22 अगस्त 2012@

@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2012)

नायब सूबेदार लिपिक निंकम दागा दौलत (जेसी-570383एक्स), 01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार लिपिक मदन लाल (जेसी-570404एच), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार लिपिक उत्तम गजबे रहमान (जेसी-570412एफ), 01 अक्टूबर 2012

नियमित सेना इन्फैन्ट्री-जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैन्ट्री

## सूबेदार मेजर की पदोन्नति के लिए

सूबेदार (लिपिक) ओम प्रकाश (जेसी-592840ए), 01 अगस्त 2012

(सूबेदार मेजर (लिपिक) रैंक में 01 अगस्त 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार शाम लाल (जेसी-592980एम), 01 अगस्त 2012

(सूबेदार मेजर रैंक में 01 अगस्त 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार बलभादर सिंह (जेसी-593014एम), 01 अगस्त 2012

(सूबेदार मेजर रैंक में 01 अगस्त 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार मोहम्मद इलयास, एसएम (जेसी-593069डब्ल्यू), 29 मई 2012

(सूबेदार मेजर रैंक में 27 मार्च 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार तरसेम सिंह (जेसी-592939डब्ल्यू), 02 सितम्बर 2012

(सूबेदार मेजर रैंक में 01 अप्रैल 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार श्याम लाल (जेसी-593055डब्ल्यू), 01 अगस्त 2012

(सूबेदार मेजर रैंक में 01 अगस्त 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

## डोगरा रेजीमेंट

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सुदेश कुमार (जेसी-520130एम), 09 अप्रैल 2012+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से)

सूबेदार इंदर देव चंदेल (जेसी-520461एन), 04 सितम्बर 2012+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से)

सूबेदार चिन्त राम (जेसी-519904एक्स), 05 सितम्बर 2012+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से)

सूबेदार विनोद कुमार (जेसी-520292एक्स), 05 सितम्बर 2012+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से)

सूबेदार प्रकाश चन्द भारद्वाज (जेसी-520322के), 04 अक्टूबर 2012+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से)



## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार अनिल कुमार (जेसी-521301ए), 25 अगस्त 2012+  
 +(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से)

नायब सूबेदार यौबराज सिंह (जेसी-521302एच), 25 अगस्त 2012+  
 +(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से)

नायब सूबेदार ज्ञान चन्द (जेसी-521174डब्ल्यू), 12 सितम्बर 2012+  
 +(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 अप्रैल 2012 से)

नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार शर्मा (जेसी-521169एल), 09 जून 2012+  
 +(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2012 से)

नायब सूबेदार बरजंग सिंह (जेसी-520937पी), 27 अगस्त 2012+  
 +(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से)

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-521224डब्ल्यू), 24 जुलाई 2012+  
 +(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से)

नायब सूबेदार नेक सिंह (जेसी-521226एफ), 14 अगस्त 2012+  
 +(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से)

नायब सूबेदार नरेन्द्र कुमार (जेसी-521023एक्स), 29 सितम्बर 2012+  
 +(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से)

नायब सूबेदार दया राम (जेसी-521225वाई), 23 सितम्बर 2012+  
 +(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से)

नायब सूबेदार ज्ञान चंद (जेसी-520910एक्स), 25 सितम्बर 2012+  
 +(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 सितम्बर 2012 से)

नायब सूबेदार तरसेम सिंह (जेसी-521034के), 25 सितम्बर 2012+  
 +(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 सितम्बर 2012 से)

नायब सूबेदार मस्त राम (जेसी-521022पी), 08 अक्टूबर 2012+  
 +(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 सितम्बर 2012 से)

नायब सूबेदार दौलत राम (जेसी-520911ए), 11 अक्टूबर 2012+  
 +(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 सितम्बर 2012 से)

नायब सूबेदार ईश्वर दास (जेसी-520884एफ), 01 अक्टूबर 2012

## सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) नरेश कुमार (जेसी-520860एक्स), 01 अगस्त 2012

नायब सूबेदार (लिपिक) श्रीधर मोहन्ती (जेसी-520881एन), 01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार (लिपिक) के दुर्गा प्रसाद पटनायक (जेसी-520861ए), 01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार (लिपिक) राकेश कुमार (जेसी-520882डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार (लिपिक) नारायण पात्री (जेसी-520906पी), 01 अक्टूबर 2012

## सूबेदार (संगीतकार) के रैंक में

नायब सूबेदार (संगीतकार) करम चंद (जेसी-521205एल), 08 सितम्बर 2012+  
 +(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जून 2012 से)

## गढ़वाल राइफल्स

## सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार मथुरा प्रसाद (जेसी-529552वाई), 14 मई 2012/01 मई 2012\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2012 से दी जाती है)

सूबेदार तुला राम (जेसी-529553एफ), 27 जून 2012/01 जून 2012\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)

सूबेदार बृजमोहन सिंह (जेसी-529713डब्ल्यू), 04 जुलाई 2012/01 जुलाई 2012\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जाती है)

सूबेदार हरीश सिंह (जेसी-530041एफ), 15 अगस्त 2012/01 अगस्त 2012\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

- सूबेदार दान सिंह (जेसी-529516एन), 01 सितम्बर 2012
- सूबेदार सतल सिंह (जेसी-530037वाई), 14 सितम्बर 2012/01 सितम्बर 2012\*
- \*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)
- सूबेदार तेजपाल सिंह भण्डारी, सेना मैडल (जेसी-529652के), 10 सितम्बर 2012/01 सितम्बर 2012\*
- \*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)
- सूबेदार धर्मेन्द्र सिंह (जेसी-529963एक्स), 05 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012\*
- \*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)
- सूबेदार जसमोहन (जेसी-529710एच), 01 अक्टूबर 2012
- सूबेदार नरेश चन्द्र (जेसी-529711एल), 01 अक्टूबर 2012
- सूबेदार मेजर (लिपिक/एसडी) के रैंक में
- सूबेदार लिपिक (एसडी) छेत्रपाल सिंह (जेसी-530020एल), 02 जुलाई 2012/01 जुलाई 2012\*
- \*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जाती है)
- सूबेदार (जीडी) के रैंक में
- नायब सूबेदार साबर सिंह (जेसी-530685एफ), 01 जनवरी 2012
- नायब सूबेदार महिपाल सिंह (जेसी-530629एच), 30 मई 2012/01 मई 2012\*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2012 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार बलवन्त सिंह (जेसी-530701एन), 10 जुलाई 2012/29 अप्रैल 2012\*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 अप्रैल 2012 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार दाता राम (जेसी-530757ए), 26 मई 2012/01 मई 2012\*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2012 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार कुलदीप सिंह नेगी (जेसी-530732एन), 23 मई 2012/01 मई 2012\*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2012 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार विवेका नन्द (जेसी-530579एच), 04 जून 2012/05 मई 2012\*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 मई 2012 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार मदन सिंह (जेसी-530670वाई), 01 जून 2012
- नायब सूबेदार भागी राम (जेसी-530654एफ), 08 जुलाई 2012/01 जून 2012\*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार सतीश चन्द्र चिल्डियाल (जेसी-530764डब्ल्यू), 01 जून 2012
- नायब सूबेदार माधो सिंह (जेसी-530612पी), 07 अगस्त 2012/01 जून 2012\*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार राम सिंह (जेसी-530611एम), 09 जुलाई 2012/01 जून 2012\*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार दयाल सिंह (जेसी-530624के), 09 जुलाई 2012/01 जून 2012\*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार केशर सिंह (जेसी-530987एन), 22 अगस्त 2012/01 जून 2012\*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार सुमेर सिंह (जेसी-531006एल), 22 अगस्त 2012/01 जून 2012\*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार आलम सिंह (जेसी-531016पी), 22 अगस्त 2012/01 जून 2012\*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार अमर सिंह (जेसी-530877वाई), 01 अगस्त 2012/01 जून 2012\*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सतीश चन्द्र (जेसी-530883एम), 30 अगस्त 2012/  
01 जून 2012 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार जगत सिंह (जेसी-530681एल), 05 जुलाई 2012/  
05 जून 2012 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
05 जून 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार हरेन्द्र सिंह (जेसी-530702डब्ल्यू), 30 जून 2012

नायब सूबेदार सतीश सिंह (जेसी-530767के), 30 जून 2012

नायब सूबेदार आनन्द सिंह (जेसी-530778डब्ल्यू), 01 जुलाई 2012

नायब सूबेदार हरी प्रसाद (जेसी-530957डब्ल्यू), 01 जुलाई 2012

नायब सूबेदार रविन्द्र सिंह (जेसी-530660पी), 09 जुलाई 2012/  
01 जुलाई 2012 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जुलाई 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बिरेन्द्र सिंह (जेसी-530695एल), 09 जुलाई 2012/  
01 जुलाई 2012 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जुलाई 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार चन्दन सिंह (जेसी-530630एक्स), 17 जुलाई 2012/  
01 जुलाई 2012 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जुलाई 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-530777एन), 01 जुलाई 2012

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-530893डब्ल्यू), 01 अगस्त 2012/  
01 जुलाई 2012 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जुलाई 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार शिवा नन्द (जेसी-530722के), 01 अगस्त 2012

नायब सूबेदार केशर सिंह (जेसी-530721एफ), 01 अगस्त 2012

नायब सूबेदार सोबन सिंह (जेसी-530827एन), 01 अगस्त 2012

नायब सूबेदार दलीप सिंह (जेसी-530779वाई), 01 अगस्त 2012

नायब सूबेदार पूरन सिंह (जेसी-530780एन), 01 अगस्त 2012

नायब सूबेदार भुपेन्द्र सिंह (जेसी-530853पी), 01 अगस्त 2012

नायब सूबेदार प्रदीप सिंह (जेसी-530855ए), 01 अगस्त 2012

नायब सूबेदार लक्ष्मण सिंह (जेसी-530782वाई), 07 अगस्त 2012/  
01 अगस्त 2012 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार चैत सिंह (जेसी-530899एक्स), 01 अगस्त 2012

नायब सूबेदार हुकम चन्द (जेसी-530671एफ), 18 सितम्बर 2012/  
01 अगस्त 2012 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार दिनेश सिंह (जेसी-530857एल), 26 सितम्बर 2012/  
01 अगस्त 2012 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राधे श्याम (जेसी-530848के), 01 अगस्त 2012

नायब सूबेदार रमेश सिंह (जेसी-530807ए), 01 अगस्त 2012

नायब सूबेदार दिगम्बर सिंह (जेसी-530849एम), 12 सितम्बर  
2012/01 अगस्त 2012 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार प्रदीप सिंह (जेसी-530683डब्ल्यू), 19 सितम्बर  
2012/17 अगस्त 2012 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
17 अगस्त 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह (जेसी-530751वाई), 01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार हरिनाम सिंह गुसाई (जेसी-530697डब्ल्यू), 01 सितम्बर  
2012

नायब सूबेदार प्रताप सिंह रावत (जेसी-530717वाई), 15 सितम्बर  
2012/01 सितम्बर 2012 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बिरेन्द्र सिंह नेगी (जेसी-530856एच), 01 सितम्बर  
2012

नायब सूबेदार भवान सिंह (जेसी-530645ए), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार दया नन्द (जेसी-530894वाई), 03 अक्टूबर 2012/  
01 अक्टूबर 2012 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह (जेसी-530786पी), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह भण्डारी (जेसी-530689एक्स), 01 अक्टूबर  
2012

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र नौटियाल (जेसी-530567एन), 25 अक्टूबर  
2012/01 अक्टूबर 2012 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

## सूबेदार लिपिक एसडी के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक/एसडी) हाकम सिंह धीमान (जेसी-530592एम), 23 जून 2012/01 जून 2012 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (लिपिक/एसडी) गजपाल सिंह (जेसी-530598एन), 01 अगस्त 2012/01 जुलाई 2012 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (लिपिक/एसडी) गोपाल दत्त ममगाई (जेसी-530614ए), 01 जुलाई 2012

नायब सूबेदार (लिपिक/एसडी) हरीश चन्द्र सिंह (जेसी-530687एम), 22 अगस्त 2012/01 अगस्त 2012 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

## सिख रेजीमेंट

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार चनन सिंह (जेसी-499096एफ), 01 सितम्बर 2012

सूबेदार गुरमीत सिंह, एस सी (जेसी-499264पी), 01 सितम्बर 2012

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार मनजीत सिंह (जेसी-499914एक्स), 22 अगस्त 2012

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 )

नायब सूबेदार हरजीत सिंह (जेसी-499900एक्स), 01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार सुखविन्दर सिंह (जेसी-500077एल), 01 सितम्बर 2012

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार स्वरन सिंह, एस एम (जेसी-499147के), 01 अक्टूबर 2012

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 सितम्बर 2012)

सूबेदार भुपिन्दर सिंह (जेसी-498979वाई), 01 अक्टूबर 2012

सूबेदार देवेन्दर सिंह, एस एम (जेसी-498962एल), 01 अक्टूबर 2012

सूबेदार सतनाम सिंह (जेसी-499282एक्स), 01 अक्टूबर 2012

सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-499266ए), 01 अक्टूबर 2012

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार हरिन्दर सिंह (जेसी-499908के), 04 नवम्बर 2012  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 )

सूबेदार गुरनाम सिंह (जेसी-500202के), 01 नवम्बर 2012  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 )

सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जेसी-500237ए), 05 अक्टूबर 2012  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 )

## सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक गजेन्द्रा सिंह शेखावत (जेसी-499942के), 01 नवम्बर 2012

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सुखपाल सिंह (जेसी-500080एल), 16 अगस्त 2012  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 )

नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जेसी-499932ए), 12 सितम्बर 2012  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 )

नायब सूबेदार किरपाल सिंह (जेसी-500214वाई), 23 अगस्त 2012  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 )

नायब सूबेदार साधु सिंह (जेसी-499938एफ), 24 सितम्बर 2012  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 )

नायब सूबेदार भुपिन्दर सिंह (जेसी-499826एफ), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार मनजीत सिंह (जेसी-499958पी), 03 अक्टूबर 2012  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 )

नायब सूबेदार जगजीत सिंह (जेसी-499962एक्स), 03 अक्टूबर 2012

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 )

नायब सूबेदार जसविन्दर सिंह (जेसी-499963ए), 13 अक्टूबर 2012

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012)

नायब सूबेदार हरभजन सिंह (जेसी-500017डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार कुलबीर सिंह (जेसी-500073पी), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार वजीर सिंह (जेसी-500094एल), 01 अक्टूबर 2012

कुमाऊं रेजीमेंट

सूबेदार मेजर के पद में

सूबेदार महेन्द्र सिंह, एस एम (जेसी-539522पी), 01 अक्टूबर 2012

सूबेदार सुरेन्द्र कुमार (जेसी-539882एल), 06 अक्टूबर 2012/  
01 अक्टूबर 2012 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी गई है)

सूबेदार ढिल्लन परमजीत सिंह कश्मीर सिंह (जेसी-539326पी),  
01 जुलाई 2012

सूबेदार मोहन चन्द तिवारी (जेसी-539619ए), 09 मई 2012/  
01 मई 2012 \*

\*(सूबेदार मेजर के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2012 से दी गई है)

सूबेदार गोपाल सिंह, एस एम (जेसी-539762एम), 01 अगस्त 2012

सूबेदार दिवान सिंह (जेसी-539821एन), 01 सितम्बर 2012

सूबेदार (आर टी) खष्टी बल्लभ उपाध्याय (जेसी-158232वाई),  
01 सितम्बर 2012

जम्मू और काश्मीर राईफल्स

सूबेदार मेजर जीडी के रैंक में

सूबेदार पवन कुमार शर्मा (जेसी-580194एफ), जैक राईफल्स,  
01 अक्टूबर 2012

सूबेदार राम चन्द्र (जेसी-579853वाई), जैक राईफल्स, 01 नवम्बर 2012

सूबेदार जीडी के रैंक में

नायब सूबेदार रोमेश लाल (जेसी-580815पी), जैक राईफल्स,  
01 अप्रैल 2012

नायब सूबेदार सरत थापा (जेसी-581012पी), जैक राईफल्स,  
01 अगस्त 2012

नायब सूबेदार राकेश राणा (जेसी-580904एन), जैक राईफल्स,  
01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार बलदेव चन्द (जेसी-580951एल), जैक राईफल्स,  
01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार पवन कुमार (जेसी-581297एम), जैक राईफल्स,  
01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार राज कुमार (जेसी-581016एल), जैक राईफल्स,  
22 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार यशपाल सिंह (जेसी-581298पी), जैक राईफल्स,  
05 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार लखविन्दर सिंह (जेसी-581140एम), जैक राईफल्स,  
01 नवम्बर 2012

सूबेदार लिपिक एसडी के रैंक में

नायब सूबेदार सुलखन सिंह (जेसी-580396एच), जैक राईफल्स,  
01 अक्टूबर 2012

सूबेदार मेजर जीडी के रैंक में

सूबेदार मोहन लाल (जेसी-580216पी), जैक राईफल्स, 01 सितम्बर 2012

सूबेदार मेजर लिपिक एसडी के रैंक में

सूबेदार बिरेन्द्रा सिंह (जेसी-580064वाई), जैक राईफल्स,  
01 अक्टूबर 2012

सूबेदार जीडी के रैंक में

नायब सूबेदार इन्द्र सिंह (जेसी-581233एफ), जैक राईफल्स,  
01 अगस्त 2012

नायब सूबेदार शमशेर सिंह (जेसी-581048एन), जैक राईफल्स,  
05 अगस्त 2012

नायब सूबेदार जुगराज सिंह (जेसी-580658एन), जैक राईफल्स,  
01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार अफताब अहमद (जेसी-580935एन), जैक राईफल्स,  
01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार हीरा सिंह (जेसी-580948एल), जैक राईफल्स,  
01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार सुधीर पुण (जेसी-580975पी), जैक राईफल्स,  
01 अक्टूबर 2012

सूबेदार मेजर जीडी के रैंक में

सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-580278पी), जैक राईफल्स,  
01 सितम्बर 2012

सूबेदार प्रदीप तमंग (जेसी-580282एक्स), जैक राईफल्स,  
01 सितम्बर 2012

सूबेदार जीडी के रैंक में

नायब सूबेदार दिनेश कुमार (जेसी-580684पी), जैक राईफल्स,  
01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार लोक बहादुर गुरुंग (जेसी-580686ए), जैक राईफल्स,  
01 मार्च 2012

नायब सूबेदार क्रिशन लाल (जेसी-581046एच), जैक राईफल्स,  
01 अगस्त 2012

नायब सूबेदार ओंकार चंद (जेसी-581193एल), जैक राईफलस,  
01 अगस्त 2012

नायब सूबेदार मुखतार सिंह (जेसी-580657एल), जैक राईफलस,  
01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार मेजर सिंह (जेसी-580730वाई), जैक राईफलस,  
01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह (जेसी-580782पी), जैक राईफलस,  
01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार उपदेश सिंह (जेसी-580899एन), जैक राईफलस,  
01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार मदन लाल (जेसी-581063एच), जैक राईफलस,  
01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार कुलदिप कुमार (जेसी-581190एक्स), जैक राईफलस,  
01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार दविन्दर सिंह मिनहास (जेसी-581196वाई), जैक  
राईफलस, 01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार चिरंजी लाल (जेसी-581282के), जैक राईफलस,  
01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार कृष्ण कुमार (जेसी-581008एम), जैक राईफलस,  
01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-580734पी), जैक राईफलस,  
01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार रतन चन्द (जेसी-581037एफ), जैक राईफलस,  
01 फरवरी 2012

नायब सूबेदार युब राज सिंह गुरूंग (जेसी-5803434एन), जैक  
राईफलस, 01 मार्च 2012

नायब सूबेदार जीवन लाल बसोत्रा (जेसी-580792वाई), जैक  
राईफलस, 01 जून 2012

नायब सूबेदार श्याम लाल (जेसी-580913पी), जैक राईफलस,  
01 जून 2012

नायब सूबेदार बीर सिंह (जेसी-580793एफ), जैक राईफलस,  
09 अगस्त 2012

नायब सूबेदार खागे सिंह राणा (जेसी-580745एफ), जैक राईफलस,  
01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार अमर दास (जेसी-580942के), जैक राईफलस,  
01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार सुनील कुमार थापा (जेसी-580952एन), जैक  
राईफलस, 01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार जगदिश चन्द (जेसी-580954वाई), जैक राईफलस,  
01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार (जेसी-581011एम), जैक राईफलस,  
01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार सूबेदार विनोद कुमार मेहरा (जेसी-581081एल),  
जैक राईफलस, 01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार हेम राज (जेसी-581103वाई), जैक राईफलस,  
01 सितम्बर 2012

#### पंजाब रेजिमेंट

##### सूबेदार मेजर रैंक में

सूबेदार जसवंत सिंह (जेसी-429624एच), 01 जुलाई 2012

सूबेदार गुरचरन सिंह (जेसी-429668ए), 01 जुलाई 2012

सूबेदार गुरजित सिंह (जेसी-429686डब्ल्यू), 01 जून 2012

सूबेदार हीरा लाल (जेसी-430125ए), 01 अगस्त 2012

##### सूबेदार रैंक में

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जेसी-430551एन), 01 मई 2012

नायब सूबेदार राजिन्दर सिंह (जेसी-430689एच), 01 मई 2012

नायब सूबेदार निरभय सिंह (जेसी-430614एल), 01 जून 2012

नायब सूबेदार मेजर सिंह (जेसी-430228वाई), 01 जुलाई 2012

नायब सूबेदार जय राम चौहान (जेसी-430658एच), 01 जुलाई  
2012

नायब सूबेदार राकेश चंद (जेसी-430661एच), 01 जुलाई 2012

नायब सूबेदार अमरजीत सिंह गिल (जेसी-430314के), 01 जून  
2012

नायब सूबेदार सुखविन्दर सिंह (जेसी-430444एम), 01 अप्रैल 2012

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-430584वाई), 01 अप्रैल 2012

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-430659एल), 01 जुलाई 2012

नायब सूबेदार वजीर सिंह (जेसी-430682वाई), 01 अप्रैल 2012

नायब सूबेदार कुलवंत सिंह (जेसी-430692एच), 01 जून 2012

नायब सूबेदार राम लाल (जेसी-430702एफ), 01 जून 2012

नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी-430490एफ), 01 जून 2012

नायब सूबेदार मोहिन्दर लाल (जेसी-430632एन), 01 जुलाई 2012

नायब सूबेदार परमिन्दर सिंह (जेसी-430688ए), 01 मई 2012

नायब सूबेदार रविन्दर कुमार (जेसी-430734के), 01 जून 2012

नायब सूबेदार पलविन्दर सिंह (जेसी-430840एच), 01 अगस्त 2012

## गार्ड्स ब्रिगेड

## संग

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार भागीरथ मल जाट (सं. 13691467एन अब जेसी-404907वाई), 01 दिसम्बर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार करन पाल (सं. 13692707एम अब जेसी-404897ए), 01 जून 2012

हवलदार जुधिष्ठीर दलपती (सं. 13690490पी अब जेसी-404900पी), 23 जुलाई 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जाती है)

हवलदार उधम सिंह (सं. 13693048पी अब जेसी-404902ए), 05 अगस्त 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जाती है)

हवलदार सर्वेश नारायन सिंह (सं. 13690510एक्स अब जेसी-404903एच), 14 अगस्त 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 जुलाई 2012 से दी जाती है)

हवलदार एस हरी रामाकृष्णन (सं. 13690576एन अब जेसी-404905एन), 14 अगस्त 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार नेत्र पाल (सं. 13693283एन अब जेसी-404906डब्ल्यू), 05 अगस्त 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार मुल्तान सिंह (सं. 13693407एक्स अब जेसी-404908एफ), 11 अगस्त 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार खीमा सिंह चौहान (सं. 13693455एक्स अब जेसी-404909के), 20 अगस्त 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार सुरेन्द्र कुमार (सं. 13693534एम अब जेसी-404910वाई), 11 अगस्त 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार राजेश शर्मा (सं. 13693056एन अब जेसी-404911एफ), 07 अक्टूबर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार शमशेर सिंह (सं. 13690086ए अब जेसी-404912के), 23 सितम्बर 2012

हवलदार अजय कुमार (सं. 13690139एन अब जेसी-404913एम), 25 सितम्बर 2012\*

हवलदार मेहर सिंह (सं. 13690155एल अब जेसी-404915एक्स), 07 नवम्बर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

हवलदार परमाराम भाटी (सं. 13690190एन अब जेसी-404916ए), 19 नवम्बर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

हवलदार अब्दुल गफूर (सं. 13693363एल अब जेसी-404917एच), 01 अक्टूबर 2012

हवलदार दौलत राम (सं. 13693474एच अब जेसी-404918एल), 01 अक्टूबर 2012

हवलदार सूरज पाल सिंह (सं. 13693498एम अब जेसी-404919एन), 01 अक्टूबर 2012

हवलदार शिवायोगी बाडीगर (सं. 13690982एन अब जेसी-404921एल), 01 नवम्बर 2012

हवलदार विक्रम सिंह आर्या (सं. 13691018वाई अब जेसी-404922एन), 01 नवम्बर 2012

हवलदार रमेश कुमार (सं. 13690698एक्स अब जेसी-404923डब्ल्यू), 20 नवम्बर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार राम सजीवन सिंह (सं. 13693110डब्ल्यू अब जेसी-404924वाई), 07 नवम्बर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार ब्रज भूषण साँ (सं. 13690244के अब जेसी-404925एफ), 29 नवम्बर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार राम गोपाल शुक्ला (सं. 13690272डब्ल्यू अब जेसी-404926के), 15 दिसम्बर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार प्रणब कुमार मंडल (सं. 13690886वाई अब जेसी-404927एम), 14 नवम्बर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार दिनेश कुमार कुरीयाल (सं. 13693607एन अब जेसी-402928पी), 19 नवम्बर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार किरन पाल (सं. 13695531एक्स अब जेसी-404929एक्स), 01 नवम्बर 2012

हवलदार सत्य नारायण (सं. 13691376के अब जेसी-404930एम), 09 दिसम्बर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार गुलजारी राम (सं. 13690422एफ अब जेसी-404931पी), 26 नवम्बर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार अंजय कुमार नाथ (सं. 13691105एम अब जेसी-404934एच), 01 दिसम्बर 2012\*

हवलदार बंशी राम (सं. 13692894डब्ल्यू अब जेसी-404935एल), 03 दिसम्बर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार विरेन्द्र कुमार यादव (सं. 13693113के अब जेसी-404936एन), 03 दिसम्बर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार शेर सिंह (सं. 13691788एल अब जेसी-404937डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2012

नायब सूबेदार (आर टी) के रैंक में

सिपाही (एए) सोहन कुमार (सं. 15422248के अब जेसी-404901एक्स), 30 जून 2012

नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क एसडी) वारवाडे राजेश हरीश चन्द्र (सं. 15359519वाई अब जेसी-404904एल), 01 अगस्त 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) अर्जुन पांडे (सं. 8031969एम अब जेसी-404914पी), 01 अक्टूबर 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) ओम प्रकाश सिंह (सं. 2887654एल अब जेसी-404920एच), 01 नवम्बर 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) बिबेकानन्दा हलदर (सं. 4270466एच अब जेसी-404933ए), 01 दिसम्बर 2012

क्वचित कोर

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार रामअवतार गुर्जर (सं. 15462650डब्ल्यू अब जेसी-246021वाई), 01 दिसम्बर 2012

दफादार हलदार वर्मा (सं. 15462862एफ अब जेसी-246045एच), 01 दिसम्बर 2012

दफादार राम चन्दर (सं. 15462131एल अब जेसी-246067एफ), 01 जनवरी 2013

दफादार उपेन्द्र कुमार (सं. 15461655एच अब जेसी-246080एल), 01 जनवरी 2013\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

दफादार मखन सिंह (सं. 15464085एच अब जेसी-246081एन), 01 जनवरी 2013\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

दफादार चिंतामनी पलेरीया (सं. 15464379डब्ल्यू अब जेसी-246082डब्ल्यू), 01 जनवरी 2013

दफादार उदय भास्करा रेड्डी (सं. 15468911पी अब जेसी-246084एफ), 01 जनवरी 2013

दफादार गुरुमुख सिंह (सं. 15463401के अब जेसी-246107एक्स), 01 जनवरी 2013\*

दफादार अवय कुमार तिवारी (सं. 15465547डब्ल्यू अब जेसी-246108ए), 12 दिसम्बर 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

दफादार मनोज एम वी (सं. 15465729के अब जेसी-246110एक्स), 12 दिसम्बर 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जाती है)

दफादार दिलीप कुमार तिवारी (सं. 15466170के अब जेसी-246111ए), 12 दिसम्बर 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जाती है)



दफादार देवेन्द्रा कुमार (सं. 15467777एच अब जेसी-246112एच),  
12 दिसम्बर 2012 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जाती है)

दफादार राकेश आर पिल्ललाई (सं. 15466735के अब  
जेसी-246120एफ), 01 जनवरी 2013

दफादार संकारो पात्रो (सं. 15464476एल अब जेसी-246121के),  
01 जनवरी 2013

दफादार भिम बहादुर सुब्बा (सं. 15464969पी अब  
जेसी-246122एम), 02 जनवरी 2013 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जाती है)

दफादार बन्श बहादुर (सं. 15462747एफ अब जेसी-246142ए),  
29 दिसम्बर 2012 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जाती है)

दफादार मनोज कुमार (सं. 15463027एम अब जेसी-246143एच),  
22 दिसम्बर 2012 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जाती है)

दफादार शिवे कुमार वर्मा (सं. 1099584एम अब जेसी-246149के),  
01 जनवरी 2013

दफादार ताखत सिंह शेखावत (सं. 15461306वाई अब  
जेसी-246151एफ), 01 जनवरी 2013

दफादार सेमीनेनि राम बाबु (सं. 15461287वाई अब  
जेसी-246152के), 01 जनवरी 2013

दफादार गंगादिन यादव (सं. 15461368वाई अब जेसी-246153एम),  
01 जनवरी 2013

दफादार देबु सिंह राठौड़ (सं. 15463097एल अब  
जेसी-246164वाई), 01 जनवरी 2013

दफादार धनजयन बी (सं. 15463908एल अब जेसी-246176एन),  
01 जनवरी 2013

दफादार हनुमन्त हाली (सं. 15465141एच अब जेसी-246187ए),  
09 जनवरी 2013 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जाती है)

दफादार राम कृष्ण (सं. 15462152के अब जेसी-246190ए),  
08 जनवरी 2013 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जाती है)

दफादार चन्द्रप्पा के बी (सं. 15462169एक्स अब  
जेसी-246191एच), 07 जनवरी 2013 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जाती है)

दफादार रन विजय सिंह (सं. 15463720डब्ल्यू अब  
जेसी-246194डब्ल्यू), 09 जनवरी 2013 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जाती है)

दफादार श्रीनिवासा राव कोसीनेपल्ली (सं. 15465186एच अब  
जेसी-246196एफ), 11 जनवरी 2013 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जाती है)

दफादार इन्द्रजीत सिंह (सं. 15465402एल अब जेसी-246197के),  
11 जनवरी 2013 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जाती है)

दफादार रजीत राम यादव (सं. 15462155एक्स अब  
जेसी-246201एफ), 07 जनवरी 2013 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

दफादार ए सिवा कुमार (सं. 15462047एल अब जेसी-246204पी),  
07 जनवरी 2013 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 09 दिसम्बर 2012 से दी जाती है)

दफादार अजयन पी (सं. 15464629एम अब जेसी-246206ए),  
10 जनवरी 2013 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जाती है)

दफादार बोनथु टाटा बाबु (सं. 15464403एफ अब  
जेसी-246207एच), 10 जनवरी 2013 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जाती है)

दफादार हरनेक सिंह (सं. 15466362एफ अब जेसी-246217एम),  
16 जनवरी 2013 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 09 दिसम्बर 2012 से दी जाती है)

दफादार फर्नांडिज़ पॉलो अलेक्स (सं. 1099666पी अब जेसी-  
246000एच), 06 दिसम्बर 2012 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

दफादार अशोक कुमार (सं. 15462752एम अब जेसी-246043एक्स),  
01 नवम्बर 2012

दफादार विरेन्द्रा कुमार ढाका (सं. 15462858वाई अब जेसी-  
246044ए), 01 नवम्बर 2012

दफादार मनबीर (सं. 15463096एच अब जेसी-246049वाई),  
01 नवम्बर 2012

दफादार उमेश सिंह भदोरिया (सं. 15463162ए अब जेसी-  
246050एन), 01 नवम्बर 2012

दफादार अनिल कुमार (सं. 15461605एक्स अब जेसी-  
246065डब्ल्यू), 24 नवम्बर 2012 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

दफादार ब्रिजेश कुमार चौहान (सं. 15461798एच अब जेसी-  
246070एफ), 01 दिसम्बर 2012

दफादार आर मुरुगन (सं. 15462988एफ अब जेसी-246076एच),  
12 दिसम्बर 2012 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

दफादार रवि कलवा (सं. 15462991एफ अब जेसी-246088एक्स),  
15 दिसम्बर 2012 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 04 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

दफादार मनोज कुमार (सं. 15463077एक्स अब जेसी-246090पी),  
01 दिसम्बर 2012

दफादार शरनजीत सिंह (सं. 15463827एल अब जेसी-246093एच),  
05 नवम्बर 2012 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

दफादार राम निबास सिंह (सं. 15462461एम अब जेसी-  
246104के), 03 दिसम्बर 2012 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 24 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

दफादार रमेश कुमार (सं. 15461373एक्स अब जेसी-246106पी),  
01 दिसम्बर 2012

दफादार कुन्दन सिंह राजपूत (सं. 15465540एम अब जेसी-  
246089ए), 01 दिसम्बर 2012

दफादार गोपाल सिंह (सं. 15463383ए अब जेसी-246114एन),  
01 दिसम्बर 2012

दफादार बासुदेव घोष (सं. 15464750ए अब जेसी-246115डब्ल्यू),  
14 दिसम्बर 2012 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

दफादार सतपाल (सं. 15463829डब्ल्यू अब जेसी- 246116वाई),  
10 दिसम्बर 2012 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 13 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

दफादार ईश्वर सिंह (सं. 15464364एन अब जेसी-246117एफ),  
10 दिसम्बर 2012 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

दफादार मोहन सिंह ठाकुर (सं. 15462207एच अब  
जेसी-246118के), 11 दिसम्बर 2012 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जाती है)

दफादार सतेन्द्रा कुमार (सं. 15461666पी अब जेसी-246119एम),  
12 दिसम्बर 2012 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जाती है)

दफादार बलकार सिंह (सं. 15461624एच अब जेसी-246138एक्स),  
01 जनवरी 2013

दफादार सुरेन्द्र सिंह पनवर (सं. 15466183एफ अब जेसी-  
246144एल), 01 जनवरी 2013

दफादार मुकेश कुमार यादव (सं. 15463727ए अब जेसी-  
246156ए), 01 जनवरी 2013

दफादार राकेश कुमार (सं. 15463790पी अब जेसी-246157एच),  
01 जनवरी 2013

दफादार जी धिरूमलाई कन्नन (सं. 15463002ए अब जेसी-  
246170एम), 01 जनवरी 2013 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 09 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

दफादार अनिल कुमार (सं. 15463789ए अब जेसी-246171पी),  
01 जनवरी 2013 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जाती है)

दफादार वी सतीश (सं. 15463770एफ अब जेसी-246177डब्ल्यू),  
01 जनवरी 2013

दफादार महेन्द्रन पी (सं. 15463080एक्स अब जेसी-246172एक्स),  
01 जनवरी 2013 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जाती है)

दफादार रामाराव बट्टला (सं. 15463177एच अब जेसी-246173ए),  
01 जनवरी 2013 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जाती है)

दफादार सुब्बा रेड्डी मधीरा (सं. 15463773पी अब जेसी-246174एच), 01 जनवरी 2013\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 दिसम्बर 2012 से दी जाती है)

दफादार साई कृष्ण (सं. 15463856ए अब जेसी-246175एल), 01 जनवरी 2013

राष्ट्रपति के अंगरक्षक

दफादार अजय कुमार (सं. 15470208ए अब जेसी-235076एच), 01 जनवरी 2013

मैकनाइज्ड इन्फैन्ट्री रजिमेन्ट

सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार/लिपिक प्रिया व्रत आर्या (जेसी-420232एन), 01 दिसम्बर 2012

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) द्वारिका प्रसाद शर्मा (जेसी-421298डब्ल्यू), 19 दिसम्बर 2012\*

\*(सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (लिपिक) पंकज कुमार दास (जेसी-421299वाई), 01 जनवरी 2013

नायब सूबेदार (लिपिक) तरुन कांती समन्ता (जेसी-421300एच), 01 जनवरी 2013

नायब सूबेदार धर्मशिक्षक के रैंक में

रघुवीर पाण्डेय (जेसी-422223एल), 24 नवम्बर 2012

सुभद्रत करमाकर  
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 140, दिनांक 14 मार्च 2013--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

सेना शिक्षा कोर

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सत्यबीर (जेसी-802906एल), 02 जुलाई 2012@

सूबेदार गिरीश चन्द्र डोभाल (जेसी-802912वाई), 09 जुलाई 2012@

@(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)

सूबेदार अरविन्द कुमार (जेसी-802916पी), 04 जुलाई 2012#

सूबेदार दर्शन सिंह बंदाल (जेसी-802919एच), 03 अगस्त 2012#

सूबेदार कैलाश बिहारी द्विवेदी (जेसी-802950पी), 16 जुलाई 2012#

\$(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जाती है)

सूबेदार सुरिन्द्र सिंह (जेसी-802951एक्स), 01 अगस्त 2012

सूबेदार अमरेन्द्र कुमार झा (जेसी-802953एच), 01 अगस्त 2012

सूबेदार राम लखन द्विवेदी (जेसी-802961एफ), 01 अगस्त 2012

सूबेदार महिन्द्र सिंह (जेसी-802970एच), 01 अगस्त 2012

सूबेदार रवि एच एन (जेसी-802971एल), 01 अगस्त 2012

सूबेदार भुल्लन सिंह (जेसी-802972एन), 01 अगस्त 2012

सूबेदार सुनील दत्त त्यागी (जेसी-802980एम), 13 सितम्बर 2012\$

सूबेदार श्याम सिंह शेखावत (जेसी-802994एम), 01 सितम्बर 2012

\$(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार हरी सिंह गोहिल (जेसी-803762ए), 12 सितम्बर 2011@

@(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राधे शाम (जेसी-803785एफ), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार बाबू राम कश्यप (जेसी-803817वाई), 14 अगस्त 2012#

\$(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 जून 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बगदल खान (जेसी-803822के), 09 फरवरी 2012\$

\$(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अनिल कुमार (जेसी-803849एफ), 16 जुलाई 2012&

नायब सूबेदार मुरारी लाल शर्मा (जेसी-803853के), 16 जुलाई 2012&

नायब सूबेदार सुमेर सिंह (जेसी-803854एम), 10 जुलाई 2012&

नायब सूबेदार विजेन्द्र सिंह (जेसी-803855पी), 30 जुलाई 2012&

नायब सूबेदार कोमेश कुमार (जेसी-803858एच), 16 जुलाई 2012&

नायब सूबेदार नरेन्द्र कुमार शर्मा (जेसी-803860ए), 30 जुलाई 2012&

नायब सूबेदार रविन्द्र नाथ पद्मान (जेसी-803861एच), 25 जुलाई 2012&

नायब सूबेदार दिलबाग सिंह चहल (जेसी-803863एन), 01 अगस्त 2012&

नायब सूबेदार चिन्मय रंजन परिजा (जेसी-803865वाई), 21 अगस्त 2012&

नायब सूबेदार कुन्दन भनोट (जेसी-803868एम), 02 जुलाई 2012&

नायब सूबेदार कृष्ण कुमार (जेसी-803873एक्स), 11 जुलाई 2012&

&(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार रत्नाकर दाश (जेसी-803875एच), 02 जुलाई 2012%

नायब सूबेदार रविन्द्र सिंह (जेसी-803876एल), 20 जुलाई 2012%

नायब सूबेदार बिमल कान्त (जेसी-803877एन), 23 जुलाई 2012%

%(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सतीश कुमार (जेसी-803879वाई), 01 अगस्त 2012

नायब सूबेदार अनिल कुमार मिश्रा (जेसी-803880एन), 01 अगस्त 2012

नायब सूबेदार भीम सिंह (जेसी-803881डब्ल्यू), 20 अगस्त 2012\*

नायब सूबेदार पूनूस वी जे (जेसी-803882वाई), 01 अगस्त 2012

नायब सूबेदार राम किशोर शर्मा (जेसी-803883एफ), 01 अगस्त 2012

नायब सूबेदार जयसिंह शेखावत (जेसी-803884के), 01 अगस्त 2012

नायब सूबेदार योगन्द्र सिंह (जेसी-803885एम), 01 अगस्त 2012

नायब सूबेदार राम अवध सिंह (जेसी-803886पी), 01 अगस्त 2012

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-803887एक्स), 01 सितम्बर 2012\*

नायब सूबेदार रोशन सिंह (जेसी-803888ए), 01 अगस्त 2012

नायब सूबेदार बृजेश अबरोल (जेसी-803889एच), 06 अगस्त 2012\*

नायब सूबेदार विनोद कुमार सिंह (जेसी-803890एक्स), 01 अगस्त 2012

नायब सूबेदार (लिपिक) श्याम जी (जेसी-804213एम), 01 अगस्त 2012

नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-803892एच), 11 सितम्बर 2012\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सुदर्शन कुमार (जेसी-803893एल), 01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार बुद्धि बल्लभ डिमरी (जेसी-803894एन), 01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार राज बहादुर (जेसी-803895डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-803898के), 01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राजवीर सिंह (सं. 9511459एच अब जेसी-804628एफ), 01 जून 2012

हवलदार देशपाण्डे राजेश विनायक (सं. 9511476एच अब जेसी-804639एन), 01 जून 2012

हवलदार नरेन्द्र प्रताप यादव (सं. 9511492ए अब जेसी-804646के), 01 जुलाई 2012

हवलदार ओनाचन एम ए (सं. 9511494एल अब जेसी-804648पी), 20 जुलाई 2012@

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जायेगी)

हवलदार/लिपिक शाका मोहम्मद नईम (सं. 9510587एन अब जेसी-804649एक्स), 01 अगस्त 2012

हवलदार/लिपिक श्री संजीव कुमार दुबे (सं. 9510588डब्ल्यू अब जेसी-804650एम), 01 अगस्त 2012

हवलदार अंबुजाक्षन एन (सं. 9511498एफ अब जेसी-804651पी), 01 अगस्त 2012

हवलदार शनमुघन पिल्लै आर (सं. 9511499के अब जेसी-804652एक्स), 01 अगस्त 2012

हवलदार मुरुगेसन पी (सं. 9511501डब्ल्यू अब जेसी-804653ए), 01 अगस्त 2012

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 9511502वाई अब जेसी-804654एच), 01 अगस्त 2012

हवलदार पाटील बालासाहेब तुकाराम (सं. 9511507एक्स अब जेसी-804655एल), 01 अगस्त 2012

हवलदार सुधीर सिंह (सं. 9511508ए अब जेसी-804656एन), 01 अगस्त 2012

हवलदार त्रिलोक चन्द (सं. 9511510एक्स अब जेसी-804657डब्ल्यू), 01 अगस्त 2012

हवलदार अनिल कुमार सिंह (सं. 9511512एच अब जेसी-804658वाई), 01 अगस्त 2012

हवलदार दिलीप कुमार (सं. 9511514एन अब जेसी-804659एफ), 01 अगस्त 2012

हवलदार विजय कुमार पांडेय (सं. 9511516वाई अब जेसी-804660डब्ल्यू), 01 अगस्त 2012

हवलदार अजीत सिंह (सं. 9511517एफ अब जेसी-804661वाई),  
01 अगस्त 2012

हवलदार जितेन्द्र कुमार (सं. 9511519एम अब जेसी-804662एफ),  
01 अगस्त 2012

हवलदार सत्य पाल सिंह (सं. 9511527एल अब जेसी-804664एम),  
01 अगस्त 2012

हवलदार रामदेव सिंह (सं. 9511528एन अब जेसी-804665पी),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार अशोक कुमार पी (सं. 9511529डब्ल्यू अब जेसी- 804666एक्स), 01 सितम्बर 2012

हवलदार गायकवाड़ अरविन्द पुन्जाबा (सं. 9511530एल अब जेसी- 804667ए), 01 सितम्बर 2012

हवलदार तुंगल कुमार (सं. 9511531एन अब जेसी-804668एच),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार नरेन्द्र कुमार (सं. 9511536एम अब जेसी-804669एल),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार मनोज कुमार सिंह (सं. 9511539ए अब जेसी-804670ए),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार राजेश कुमार मिश्रा (सं. 9511540पी अब जेसी- 804671एच), 01 सितम्बर 2012

हवलदार नव किशोर मुलिआ (सं. 9511542ए अब जेसी- 804672एल), 01 सितम्बर 2012

हवलदार सुनील कुमार (सं. 9511543एच अब जेसी-804673एन),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार विजय कुमार दास (सं. 9511545एन अब जेसी- 804674डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2012

हवलदार/लिपिक प्रदीप कुमार (सं. 9510590एन अब जेसी- 804675वाई), 01 अक्टूबर 2012

प्रेम प्रकाश  
अवर सचिव

#### रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 141, दिनांक 14 मार्च 2013--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :--

श्री बी एफ सुतार को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डीआरडीओ में 30 अप्रैल 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी-2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर

राजीव रंजन खों  
उपनिदेशक (कार्मिक एए-2)

(वित्त प्रभाग)

सं. 142, दिनांक 14 मार्च 2013--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त) की निजी सचिव, श्रीमती सुखपाल वालिया की अधिवर्षिता की आयु होने पर उन्हें दिनांक 31 जनवरी 2013 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त) की निजी सचिव, श्री उमेश चन्द्रा पाण्डेय की अधिवर्षिता की आयु होने पर उन्हें दिनांक 31 जनवरी 2013 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

रवि कत्याल  
सहा वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

सं. 143, दिनांक 15 मार्च 2013--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

शुद्धिपत्र

भारत के राजपत्र सं. 478 दिनांक 23 सितम्बर 2011 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 43 दिनांक 22 अक्टूबर 2011 शीर्षक नियमित सेना उपशीर्षक इन्फैन्ट्री और मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट के नीचे निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

नायब सूबेदार के रैंक में

के स्थान पर :--

हवलदार (लिपिक) चव्हाण विलास कौंडीराम (सं. 14916808एफ अब जेसी-420017एफ), 01 जुलाई 2011

पढ़ा जाए :--

हवलदार (लिपिक) चव्हाण विलास कौंडीराम (सं. 14916808एफ अब जेसी-420017एफ), 01 जुलाई 2011\*

\*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

भारत के राजपत्र सं. 548 दिनांक 31 अक्टूबर 2011 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 48 दिनांक 26 नवम्बर 2011 शीर्षक नियमित सेना उपशीर्षक इन्फैन्ट्री और मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट के नीचे निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

नायब सूबेदार के रैंक में

के स्थान पर :--

हवलदार जगदाले प्रकाश माधव (सं. 14918700एच अब जेसी- 422026एच), 14 जुलाई 2011\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 जून 2011 से दी जाती है)

पढ़ा जाए :--

हवलदार जगदाले प्रकाश माधव (सं. 14918700एच अब जेसी- 422026एच, 14 जुलाई 2011\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

भारत के राजपत्र सं. 208, दिनांक 07 मई 2012 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 22 दिनांक 02 जून 2012 शीर्षक नियमित सेना उपशीर्षक इन्फैन्ट्री और मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट के नीचे निम्नलिखित संशोधन किया जाता है

नायब सूबेदार के रैंक में

के स्थान पर :--

हवलदार दिनेश कुमार सिंह (सं. 14916713एफ अब जेसी- 422045एन), 06 सितम्बर 2011\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 अगस्त 2011 से दी जाती है)

पढ़ा जाए :--

हवलदार दिनेश कुमार सिंह (सं. 14916713एफ अब जेसी- 422045एन), 06 सितम्बर 2011\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जाती है)

के स्थान पर :--

हवलदार अबिलाश कुमार पी एस (सं. 14916725डब्ल्यू अब जेसी- 422048एफ), 22 सितम्बर 2011\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जाती है)

पढ़ा जाए :--

हवलदार अबिलाश कुमार पी एस (सं. 14916725डब्ल्यू अब जेसी- 422048एफ), 22 सितम्बर 2011\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जाती है)

भारत के राजपत्र सं. 451, दिनांक 04 अक्टूबर 2012 को शीर्षक नियमित सेना स्थायी रिसालदार मेजर विशेष सूची क्वचित कोर पृष्ठ सं. 1618 के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है

के स्थान पर :--

रिसालदार उदय भान (जेसी- 242709एन), 15 फरवरी 2012\*

\*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

पढ़ा जाए :--

रिसालदार उदय भान (जेसी- 242709एन), 15 फरवरी 2012\*

\*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

भारत के राजपत्र सं. 451, दिनांक 04 अक्टूबर 2012 को शीर्षक नियमित सेना स्थायी रिसालदार विशेष सूची क्वचित कोर पृष्ठ सं. 1620 के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

के स्थान पर :--

नायब रिसालदार परिमल घोष (जेसी- 244510एल), 23 फरवरी 2012\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

पढ़ा जाए :--

नायब रिसालदार परिमल घोष (जेसी- 244510एल), 23 फरवरी 2012\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 फरवरी 2012 से दी जाती है)

सुभव्रत करमाकर  
अवर सचिव

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 6th April 2013

## ARMY BRANCH

No. 137, dated 13th March 2013—The President is pleased to make the following appointments :—

## REGULAR ARMY

## SHORT SERVICE COMMISSION

To be Lt

The undermentioned 41 officers of SSCW (Tech)-07 Course were granted Short Service Commission (on probation) in the rank of Lt under the term and conditions of SAI 1/S/92, as amended read in conjunction with Gol Letter No B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 2006 for SSCOs (Woment-Tech). Subsequently, on successful completion of training, their Short Service Commission on probation have been confirmed for a period of 10 years wef 17 Mar 2012. They have also been granted one year ante-date seniority for pay and promotion for possession of technical qualification from 20 Mar 2011 under the provisions of AI 10/96 (Corrigendum No 9 dated 01 Jun 96 to SAI 1/S/92) :—

(SS-45425L) Gagandeep Kaur, Sigs  
 (SS-45426N) Ela Vohra, Sigs  
 (SS-45433K) Deepti Yadav, EME  
 (SS-45435P) Vaishali, Sigs  
 (SS-45437A) Suchika, Engr  
 (SS-45439L) Ruchi Bhadula, EME  
 (SS-45440A) Sabnis Archis Deepen, Engr  
 (SS-45443N) Patil Shruti Hanmantrao, Engr  
 (SS-45445Y) Kanika Saini, Sigs  
 (SS-45447K) Deepti Bhatt, EME  
 (SS-45449P) Shweta Guleria, Sigs  
 (SS-45455H) D Mello Valentina John, EME  
 (SS-45461W) Parnika Sangwan, Sigs  
 (SS-45462Y) Diviya Marwaha, EME  
 (SS-45468A) Smita Kalwaniya, Engr  
 (SS-45471A) Parvathy Raj, EME  
 (SS-45473L) Siddhi Ojha, EME  
 (SS-45475W) Richa Yadav, EME  
 (SS-45477F) Gagandeep Kaur, Sigs  
 (SS-45479M) Namrata Jodha, EME  
 (SS-45480F) Tarushi Mohan, EME  
 (SS-45481K) Parul Arora, EME

(SS-45485A) Himani Prakash, Sigs  
 (SS-45486H) Versha Jain, EME  
 (SS-45489W) Prerna Chhetri, EME  
 (SS-45492W) Bandana Salathia, EME  
 (SS-45500K) Anju Yadav, Engrs  
 (SS-45502P) Kalpana Saran, Sigs  
 (SS-45503X) Charu, EME  
 (SS-45508W) Monika Malik, EME  
 (SS-45509Y) Neha Chauhan, EME  
 (SS-45511W) Rupinder Kaur Kalkat, EME  
 (SS-45514K) Paramvir Kaur, Sigs  
 (SS-45520X) Cindy Deori, EME  
 (SS-45521A) Neha Singh, EME  
 (SS-45526Y) Harpreet Kaur Bahia, Sigs  
 (SS-45529M) Shweta Pandey, EME  
 (SS-45530F) Sugandh Sirohi, EME  
 (SS-45537L) Anshika Misra, Sigs  
 (SS-45539W) Sangeetha Nath, EME  
 (SS-45543Y) Nehail Shahnawaj, Engr

The undermentioned 114 officers of SSC(NT)-93 Course have completed their Short Service Commission on probation for six months commencing from 17 Mar 2012. They are granted Short Service Commission in the rank of Lieutenant for a period of 10 years wef 17 Mar 2012 under the provisions of SAI 3/S/98, as amended, read in conjunction with Gol Letter No. B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 2006 :—

(SS-45262H) Chena Ram Bera, Inf  
 (SS-45263L) Himanshu Badotra, Inf  
 (SS-45264N) Alok Shamrao Gaikwad, Avn  
 (SS-45266Y) Prasad Ganesh Mahadik, Inf  
 (SS-45267F) Narender Singh Waldia, Engrs  
 (SS-45268K) Sharat Chingakhm, Inf  
 (SS-45269M) Ashish Kumar, AC  
 (SS-45270F) Jasdev Singh, Inf  
 (SS-45271K) Mhaskar Somadatta Dilip, Arty  
 (SS-45272M) Bhanu Pratap Singh, EME  
 (SS-45273P) Kshitij Negi, Inf  
 (SS-45275A) S Lounii Key, Arty  
 (SS-45276H) Parvinder Dagar, Mech  
 (SS-45281N) Avinash Kumar, Arty  
 (SS-45282W) Ravi Kumar Chaudhary, Inf

(SS-45283Y) Abhinaw Chhettri, Avn	(SS-45339A) Rahul Raina, EME
(SS-45285K) Ankur Kumar Singh, AOC	(SS-45340P) Anil Kumar, Inf
(SS-45288X) Rahul Panjan Rawat, Inf	(SS-45342A) Yogesh Kumar Lohani, AC
(SS-45289A) Samrender Singh, AAD	(SS-45344L) Sumant Kaushik, ASC
(SS-45290P) Sakalkar Pratardan Gopal, Arty	(SS-45345N) Ketan Kumar Saggarr, Mech
(SS-45291X) Deshpande Ashwin Uday, Arty	(SS-45347Y) Kiran Moy Mandal, EME
(SS-45292A) Vibhore Joshi, Inf	(SS-45348F) Prateek Sharma, AAD
(SS-45294L) Kunal Shrivastava, Arty	(SS-45349K) Simarpreet Singh, Arty
(SS-45295N) Hariharan Pillai, Inf	(SS-45350Y) Dhruv Chandra, Arty
(SS-45296W) Kuljit Singh, Inf	(SS-45351F) Rahul Singh, AOC
(SS-45297Y) Abhishek Sharma, AAD	(SS-45352K) Digvijay Singh Katoch, Inf
(SS-45298F) Chingangbam Sanjit Singh, ASC	(SS-45355X) Deepak Singh Bisht, Sigs
(SS-45299K) Sonam Namgyal, Inf	(SS-45356A) Kulkarni Sumeet Subhash, Inf
(SS-45300N) Lionel Joseph Wilkins, AC	(SS-45357H) Bhavesh Gautam, Inf
(SS-45301W) K Nageshwara Rao, Arty	(SS-45359N) Rohit Sharma, Inf
(SS-45303F) Chyo Tshering Lepcha, Inf	(SS-45360H) Lolit Chandra Deori, Inf
(SS-45304K) Praveen Hooda, AAD	(SS-45361L) Kiran Jadhav, Inf
(SS-45305M) Arhat Pant, Inf	(SS-45362N) Worchuithan Ragui, Inf
(SS-45306P) Umesh Lamba, Inf	(SS-45364Y) Anoop Kumar Singh, Arty
(SS-45307X) Pushpinder Singh Verma, Inf	(SS-45366K) A Priyavrata Singh, Inf
(SS-45309H) Bhupender Singh Arora, Inf	(SS-45367M) Shantanu Roy, Arty
(SS-45310X) Amarjeet Kumar, Arty	(SS-45368P) Bhanu Pratap Singh, Arty
(SS-45312H) Lamtinlal, Inf	(SS-45371P) Abhishek Tiwari, ASC
(SS-45313L) Danny Mathew, AOC	(SS-45373A) Shashank Shekhar Sarangi, Arty
(SS-45314N) Manish Mishra, Inf	(SS-45376N) Himanshu Ohlan, Engrs
(SS-45315W) Abhishek Bhadauria, Inf	(SS-45378Y) Aravindh Vikash G, Avn
(SS-45316Y) Deepak Joshi, ASC	(SS-45379F) Shiv Pratap Singh Chauhan, AC
(SS-45317F) Anand Kr Thakur, Arty	(SS-45382F) Dhananjay Singh, Inf
(SS-45319M) Bhaskar Garg, Avn	(SS-45383K) Ningthoujam Dinesh Singh, Avn
(SS-45320F) Harsh Vardhan Dogra, Mech	(SS-45384M) Saurabh Singh, Inf
(SS-45322M) Narendra Singh Negi, Engrs	(SS-45385P) Patharkar Anand Sharad, Avn
(SS-45326H) Satyam Shekhar, Arty	(SS-45386X) Soubam Kinobabu Singh, Inf
(SS-45329W) Ashish Minocha, Sigs	(SS-45387A) Sunny Tomer, Inf
(SS-45330L) Solankar Sidram Pandurang, Arty	(SS-45389L) Arjun R J, EME
(SS-45332W) Angadjit Singh Punnia, Arty	(SS-45391H) Vikas Shukla, Mech
(SS-45334F) Vivek Kumar Singh, Arty	(SS-45392L) Vinay Pratap Singh, Inf
(SS-45336M) Ramesh Chandra Suyal, Arty	(SS-45394W) Soumya Mukherjee, AC
(SS-45337P) Sanjay Kumar Katabu, ASC	(SS-45395Y) Mohammad Naushad, Inf
(SS-45338X) Baiju Babu, Avn	(SS-45396F) Pritam Mohanty, Arty



(SS-45397K) Prasenjit Dhar, Arty  
 (SS-45398M) Ashish Dalal, Arty  
 (SS-45399P) Harsh Vardhan Kumar, Arty  
 (SS-45400Y) Mohsin Kamal, Inf  
 (SS-45402K) Surya Kant Singh, Engrs  
 (SS-45403M) Sangeeth V K, Inf  
 (SS-45406A) Hemant Kumar Shukla, Arty  
 (SS-45407H) Alok H K, Inf  
 (SS-45408L) Ankur Mishra, Arty  
 (SS-45409N) Rahul Tiwari, Inf  
 (SS-45411L) Pradeep Sharma, ASC  
 (SS-45412N) Aakash Negi, AAD  
 (SS-45413W) Neeraj Yadav, Inf  
 (SS-45414Y) Suresh Shullai, Inf  
 (SS-45415F) Anand Kumar, Inf  
 (SS-45418P) Ravi Mishra, Arty  
 (SS-45419X) Priyam Iqbal, AC  
 (SS-45420M) Vipul Pandey, AOC  
 (SS-45421P) Vikas Singh, Avn  
 (SS-45423A) Pradyuman Kumar Agnihotri, Inf  
 (SS-45424H) Hemant Nangia, AAD

The undermentioned 43 officers of SSCW(NT)-07 Course have completed their Short Service Commission (on probation) for six months commencing from 17 Mar 2012. They are granted Short Shervice Commission in the rank of Lieutenant for a period of 10 years wef 17 Mar 2012 under the provisions of SAI 1/S/92, as amended, read in conjunction with Gol Letter No. B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 2006 :—

(SS-45265W) Arpana Bhau, ASC  
 (SS-45274X) Deepshikha Joshi, AOC  
 (SS-45277L) Aditi Dash, AOC  
 (SS-45278N) Abindita Bisht, JAG  
 (SS-45279W) Tina, ASC  
 (SS-45280L) Kriti, JAG  
 (SS-45284F) Jyoti Sharma, JAG  
 (SS-45286M) Mohita Malhotra, ASC  
 (SS-45287P) Ishita Sood, ASC  
 (SS-45293H) Deep Shiekha, ASC  
 (SS-45302Y) Ruchi Aggrawal, Int  
 (SS-45308A) Swathi Srivalli Dharwadkar, Int  
 (SS-45311A) Maanasi Shirish Gajendragadkar, AOC

(SS-45318K) Ruchika Sharda, JAG  
 (SS-45323P) Navneet Kaur, AOC  
 (SS-45324X) Arkza Negi, AOC  
 (SS-45325A) Ridhishri Sharma, JAG  
 (SS-45327L) Chetana Rawat, ASC  
 (SS-45328N) Anju Kumari, AOC  
 (SS-45333Y) Nisha Prasanna, Int  
 (SS-45335K) Shruti Rawat, JAG  
 (SS-45343H) Indira Laishram, ASC  
 (SS-45346W) Rajalakshmi P, ASC  
 (SS-45353M) Neha Ghai, Int  
 (SS-45354P) Manju Gupta, JAG  
 (SS-45358L) Snober Khan, ASC  
 (SS-45363W) Priya Palni, AOC  
 (SS-45369X) Arti Tiwari, ASC  
 (SS-45370M) Juhee Baruah, AOC  
 (SS-45372X) Shalini Negi, ASC  
 (SS-45374H) Khushboo Kanwar, ASC  
 (SS-45375L) Monal Ray, JAG  
 (SS-45380W) Chitra Pandey, ASC  
 (SS-45388H) Deepali, JAG  
 (SS-45390A) Purvi Gupta, AOC  
 (SS-45393N) Naveena Shekhawat, ASC  
 (SS-45401F) Aparajita Bhattacharya, Int  
 (SS-45404P) Pooja, ASC  
 (SS-45405X) Parnika Lomas, JAG  
 (SS-45410H) Niharika Badootra, AOC  
 (SS-45416K) Neha Sharma, Avn  
 (SS-45417M) Preeti Misra, JAG  
 (SS-45422X) Shilpa Choudhary, AOC

The undermentioned 74 officers of SSC(Tech)-36 Course were granted Short Service Commission (on probation) in the rank of Lt under the term and conditions of AI 1/93, as amended read in conjunction with Gol Letter No. B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 2006 for SSCOs(Men-Tech). Subsequently, on successful completion of training, their Short Service Commission on probation have been confirmed for a period of 10 years wef 17 Mar 2012. They have also been granted one year ante-date seniority for pay and promotion for possession of technical qualification from 20 Mar 2011 under SAI 1/S/94 as amended :—

(SS-45427W) Pankaj Rawal, Mech  
 (SS-45428Y) Devender Singh, Mech

(SS-45429F) Zamrud Wajdi, AC	(SS-45491N) Singh Vikrant Bhoopsing, EME
(SS-45430W) Rajat Kumar Pandey, Arty	(SS-45493Y) Sudhanshu Rai, EME
(SS-45431Y) Nanda Kumar B, Inf	(SS-45494F) Dharmendra Chandel, Sigs
(SS-45432F) Varun Upadhyay, Engrs	(SS-45495K) Maharsh Shah, EME
(SS-45434M) Macky Juneja, Int	(SS-45496M) Akshaya Sethi, Engrs
(SS-45436X) Anuj Sharma, Inf	(SS-45497P) Swikar Bhardwaj, Arty
(SS-45438H) Manish Kumar Singh, Engrs	(SS-45498X) Wamorkar Sarang Anil, Sigs
(SS-45441H) Ravi Shukla, EME	(SS-45504A) Subrata Debbarma, Engrs
(SS-45442L) Himanshu Baliyan, ASC	(SS-45505H) Sandeep Sharma, Sigs
(SS-45444W) Umashankar Nanjappa, Engrs	(SS-45506L) Durgesh Nandkumar Wanaskar, Engrs
(SS-45446F) Manjit Taxak, Sigs	(SS-45507N) Pawan Kumar, EME
(SS-45448M) Kailash Kumar Rai, Engrs	(SS-45510N) Rahul Dhama, Inf
(SS-45450K) Ankit Deorari, AOC	(SS-45512Y) Mahavir Prasad Jangid, Sigs
(SS-45451M) Suraj Kumar Raghuvanshi, Sigs	(SS-45513F) Anshuman Rai, ASC
(SS-45452P) Karthick Hari, EME	(SS-45515M) Gaurav Tak, Engrs
(SS-45453X) Amrinder Singh Grewal, EME	(SS-45516P) Tadphale Omkar Satish, Inf
(SS-45454A) Manish Dubey, Sigs	(SS-45517X) Sunil Kumar Suthar, EME
(SS-45456L) Sumit Sharma, EME	(SS-45518A) Singh Atulvikram Neeraj Singh, Inf
(SS-45457N) Rohit Rathee, EME	(SS-45522H) Ritesh Kumar Mishra, Arty
(SS-45458W) Padam Singh, Engrs	(SS-45523L) Hitesh Issar, ASC
(SS-45459Y) G Varun, AAD	(SS-45524N) R Vignesh, Engrs
(SS-45460N) Jasmeet Singh, EME	(SS-45525W) Nitesh Chauhan, Inf
(SS-45463F) Jayesh Nandkumar Desai, Engrs	(SS-45527F) Tariq Raza Ansari, Sigs
(SS-45464K) Nitesh Kumar, Sigs	(SS-45528K) Suraj Joshi, AC
(SS-45465M) Abhishek Pandey, AOC	(SS-45531K) Shreshth Joshi, AC
(SS-45466P) Himanshu Balodhi, AAD	(SS-45533P) Santosh Kumar, Engrs
(SS-45467X) Praveen Kumar Mishra, Arty	(SS-45534X) Snendra Singh, Engrs
(SS-45469H) Reetu Raj, Engrs	(SS-45535A) Antony Nishanth Rodriguez M, Arty
(SS-45470X) Amarjit Singh, Sigs	(SS-45536H) Deshmukh Raviraj Sambhajirao, EME
(SS-45472H) Sudhir Kumar, Sigs	(SS-45538N) Sunny Singh, EME
(SS-45474N) Krishna Kumar, Mech	(SS-45540L) Anshul Thakur, Engrs
(SS-45476Y) B S Padmakar Nagireddy, Engrs	(SS-45541N) Jatin Khurana, Sigs
(SS-45478K) Deepankar Hyanki, Engrs	(SS-45544F) Sidharth Mohan, EME
(SS-45482M) Peeyoosh Pandey, Engrs	
(SS-45483P) Sujeet Chaudhary, EME	
(SS-45484X) Nishant Mehta, Engrs	
(SS-45487L) Raj Kumar Singh, Inf	
(SS-45488N) Angadi Rajashekar, Int	
(SS-45490L) Ankush Sharma, Sigs	

RAHUL SANGWAN  
Lt Col  
AMS 8B

## ARMY BRANCH

No. 138, dated 13th March 2013—The President is pleased to make the following appointments :—

## REGULAR ARMY

## SHORT SERVICE COMMISSION

## To be Lt

The undermentioned nine officers of SSC(NT)-92 Course have completed their Short Service Commission (on probation) for six months commencing from 17 Sep 2011. They are granted Short Service Commission in the rank of Lieutenant for a period of 10 years wef 17 Sep 2011 under the provisions of SAI 1/S/98, as amended, read in conjunction with Gol Letter No. B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 2006 :—

Ankush Singh (SS-44783K), ASC with the seniority below P Divya Praneeth (SS-44782F), Inf, Gagandeep Singh (SS-44796F), Arty with the seniority below Praveen Kumar Bhor (SS-44790A), Arty, Rahul Sauda (SS-44799P), Inf with the seniority below Vishesh Panwar (SS-44797K), Inf, Gaurav Singh Lohamaror (SS-44833K), Inf with the seniority below Sinam Purnachandra (SS-44832F), Inf, Bikram Sharma (SS-44841H), Inf with the seniority below Ashish Nandkishore Kuldarni (SS-44840A), Avn, Saleem Jafar (SS-44849P), Inf with the seniority below Manvinder Singh (SS-44846F), Engrs, Rane Kaustubh Pradash Kumar (SS-44861W), Inf with the seniority below Rajkumar Jaswant Singh (SS-44860N), Arty, Vikrant Kumar Singh (SS-44914K), ASC with the seniority below Kaushik Roy (SS-44913F), Inf and Adhiraj Choudhary (SS-44971L), Arty with the seniority below Sidharth (SS-44970H), JAG whose names have been published in the Gazette of India dated 30 Jun 2012

The undermentioned one officer of SSC(Tech)-35 Course was granted Short Service Commission (on probation) in the rank of Lt under the term and conditions of AI 1/93, as amended read in conjunction with Gol Letter No. B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 2006 for SSCOs (Men-Tech). Subsequently, on successful completion of training, their Short Service Commission on probation has been confirmed for a period of 10 years wef 17 Sep 2011. They have also been granted two years ante-date seniority for pay and promotion for possession of technical qualification from 20 Sep 2009 under SAI 1/S/94 as amended :—

Sudeep Chatterjee (SS-45086W), EME with the seniority below Sourabh Kumar (SS-45085N), Sigs, whose name has been published in the Gazette of India dated 30 Jun 2012

The undermentioned one officer of SSCW(NT)-06 Course have completed Special Short Service Commission (on probation) for six months commencing from 17 Sep 2011. They are granted Short Service Commission in the rank of Lt for a period of 10 years wef 17 Sep 2011 under the provisions of SAI 1/S/92, as amended, read in conjunction

with Gol Letter No. B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 2006 :—

Sapna Govind Sawant (SS-44953H), AAD with the seniority below Jyoti Sharma (SS-44951X), ASC whose names have been published in the Gazette of India dated 30 Jun 2012

## SPECIAL COMMISSION

The undermentioned 41 (Forty one) Gentlemen Cadets of SCO-28 Course are granted Special Commission in the Army in the rank of Lt w.e.f. 09 Jun 12 under the provision of AI 5/97.

(S-835) (No. 9513144X), AEC, Vinod Kumar Sharma (SC-00675A), AC

(S-822) (No. 15317402Y), Engrs, Amirthanathan J (SC-00676H), Inf

(S-854) (No. 15568919W), Engrs, Ravindra R Salunkhe (SC-00677L), Engrs

(S-852) (No. 2610911N), Inf, Ezhilarasan V (SC-00678N), Arty

(S-856) (No. 14428691X), Arty, Kirshen Kumar, SM (SC-00679W), AOC

(S-827) (No. 15325949W), Engrs, Uma Shankar Pillai (SC-00680L), Inf

(S-843) (No. 4080158M), Inf, Sanjay Singh Rawat (SC-00681N), EME

(S-851) (No. 5850332W), Inf, Sushant Thapa (SC-00682W), Int

(S-844) (No. 13765166F), Inf, Joginder Singh (SC-00683Y), Mech

(S-848) (No. 13768192N), Inf, Brij Lal (SC-00684F), AAD

(S-823) (No. 6942209N), AOC, Amit Singh (SC-00685K), Mech

(S-830) (No. 9513349M), AEC, Pradeep Kumar (SC-00686M), Arty

(S-862) (No. 14666997N), EME, Vikash Sahi (SC-006867P), EME

(S-824) (No. 4570178P), Inf, Rajdeep (SC-00688X), ASC

(S-841) (No. 15695115A), Sigs, J Gopu (SC-00689A), Sigs

(S-845) (No. 4085384N), Inf, Balwant Singh (SC-00690P), Inf

(S-838) (No. 15783674M), AAD, Sowrapu Mallikarjuna (SC-00691X), Arty

(S-847) (No. 15678696M), Sigs, Pradeep Singh Rawal (SC-00692A), Inf

(S-840) (No. 2606144H), Inf, T Ekambaram Reddy (SC-00693H), Engrs

(S-829) (No. JC-643080N), ASC, Nitin Jamwal (SC-00694L), Inf

(S-850) (No. 15678795P), Sigs, Sanjaya Kumar Samal (SC-00695N), Arty

(S-825) (No. 3198783P), Inf, Naveen Kumar (SC-00696W), Inf

(S-859) (No. 13770297W), Inf, Ashish Gurung (SC-00697Y), AAD

(S-833) (No. 15150926W), Arty, Kishore Varghese (SC-00698F), Inf

(S-834) (No. 6395821F), ASC, Kundan Kumar (SC-00699K), Engrs

(S-857) (No. 15484201F), AC, Deepak Kumar (SC-00700N), Inf

(S-836) (No. 16112387X), Engrs, Shankar V Boragavi (SC-00701W), Engrs

(S-858) (No. 14423499K), Arty, Bireswar Deka (SC-00702Y), Arty

(S-864) (No. 4364890K), Inf, Tsewong Dorjee (SC-00703F), Inf

(S-863) (No. 9513520A), AEC, Santosh Kumar Tiwari (SC-00704K), Sigs

(S-837) (No. 15578043W), Engrs, Jai Singh (SC-00705M), Arty

(S-860) (No. 14641029L), EME, Vishal Sahi (SC-00706P), EME

(S-842) (No. 15663229X), Sigs, Rakesh Pani (SC-00707X), Sigs

(S-853) (No. 15492900F), AC, Hari Chandra (SC-00708A), Arty

(S-861) (No. 5357270L), Inf, Pankaj Kumar (SC-00709H), Inf

(S-832) (No. JC-379532X), Sigs, Bhaskar Vijay Tukaram (SC-00710X), Inf

(S-839) (No. 15329496N), Engrs, Gurvinder Singh Nagra (SC-00711A), Arty

(S-849) (No. 9513557F), AEC, Gaurav Jeet (SC-00712H), AC

(S-831) (No. JC-272645H), Arty, Ajimon C A (SC-00713L), AOC

(S-855) (No. JC-643086P), ASC, Lad Utkarsha Vasantrya (SC-00714N), ASC

(S-846) (No. 15469699P), AC, Anil Kumar (SC-00715W), Inf

NEERAJ KUMAR  
Maj  
AMS-8B

#### ARMY BRANCH

No. 139, dated 13th March 2013—The President is pleased to make the following appointment/promotion :—

#### REGULAR ARMY

#### INFANTRY

#### THE MAHAR REGIMENT

To be Sub Maj (Clk)

Sub Clk (SD) Shiv Nath Singh (JC-569667P), 01 Jul 2012

Sub Clk (SD) Avdhesh Kumar (JC-569618M), 01 Oct 2012

To be Sub (Clk)

Nb Sub Clk (SD) Ramakant (JC-570223X), 17 Mar 2012\*

\*(Granted seniority without effect on pay & allowances wef 01 Mar 2012)

Nb Sub Clk (SD) Chandan Singh (JC-570224A), 30 Jun 2012#

Nb Sub Clk (SD) Subhash Chand (JC-570225H), 02 Apr 2012#

Nb Sub Clk (SD) Kamal Singh Afria (JC-570251K), 02 Apr 2012#

Nb Sub Clk (SD) Pakhare Ganapati Tayappa (JC-570271X), 01 Apr 2012

Nb Sub Clk (SD) Rakesh Singh (JC-570272A), 01 Apr 2012

Nb Sub Clk (SD) Jagdish Prasad Sharma (JC-570273H), 01 Apr 2012

Nb Sub Clk (SD) R Sathyavasagam (JC-570343W), 02 Apr 2012#

Nb Sub Clk (SD) Shashi Shekhar Pandey (JC-570344Y),  
03 Apr 2012#

Nb Sub Clk (SD) Atarul Hoque Mandal (JC-570345F),  
01 Apr 2012

+(Granted seniority without effect on pay & allowances  
wef 01 Apr 2012)

Nb Sub Clk (SD) Pravakar Sahoo (JC-570121F), 01 Jun  
2012

Nb Sub Clk (SD) Shailendra Singh Rawat (JC-570369L),  
22 Aug 2012@

@(Granted seniority without effect on pay & allowances  
wef 01 Aug 2012)

Nb Sub Clk (SD) Nikam Daga Daulat (JC-570383X),  
01 Sep 2012

Nb Sub Clk (SD) Madan Lal (JC-570404H), 01 Oct 2012

Nb Sub Clk (SD) Gajbe Uttam Raiman (JC-570412F),  
01 Oct 2012

#### JAK LI

##### To be Sub Maj

Sub (Clk) Om Prakash (JC-592840A), 01 Aug 2012

(Granted seniority in the rank of Sub Maj (Clk) wef 01 Aug  
2012)

Sub Sham Singh (JC-592980M), 01 Aug 2012

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Aug  
2012)

Sub Balbhadar Singh (JC-593014M), 01 Aug 2012

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Aug  
2012)

Sub Mohd Ilyas, SM (JC-593069W), 29 May 2012

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 27 Mar  
2012)

Sub Tarsem Singh (JC-592939W), 02 Sep 2012

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr  
2012)

Sub Shyam Lal (JC-593055W), 01 Aug 2012

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Aug  
2012)

#### THE DOGRA REGIMENT

##### To be Sub Maj

Sub Sudesh Kumar (JC-520130M), 09 Apr 2012+

+(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect  
from 01 Apr 2012 without effect on Pay & Allowances)

Sub Inder Dev Chandel (JC-520461N), 04 Sep 2012+

+(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect  
from 01 Sep 2012 without effect on Pay & Allowances)

Sub Chint Ram (JC-519904X), 05 Sep 2012+

+(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect  
from 01 Sep 2012 without effect on Pay & Allowances)

Sub Viniod Kumar (JC-520292X), 05 Sep 2012+

+(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect  
from 01 Sep 2012 without effect on Pay & Allowances)

Sub Prakash Chand Bhardwaj (JC-520322K), 04 Oct  
2012+

+(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect  
from 01 Oct 2012 without effect on Pay & Allowances)

##### To be Sub

Nb Sub Anil Kumar (JC-521301A), 25 Aug 2012+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from  
01 Feb 2012 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Youbraj Singh (JC-521302H), 25 Aug 2012+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from  
01 Feb 2012 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Gyan Chand (JC-521174W), 12 Sep 2012+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from  
29 Apr 2012 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Surender Kumar Sharma (JC-521169L), 09 Jun  
2012+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from  
01 May 2012 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Bajrang Singh (JC-520937P), 27 Aug 2012+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from  
01 Jun 2012 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Ashok Kumar (JC-521224W), 24 Jul 2012+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from  
01 Jul 2012 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Nek Singh (JC-521226F), 14 Aug 2012+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from  
01 Jul 2012 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Narender Kumar (JC-521023X), 29 Sep 2012+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from  
01 Aug 2012 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Daya Ram (JC-521225Y), 23 Sep 2012+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from  
01 Aug 2012 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Gyan Chand (JC-520910X), 25 Sep 2012+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from  
05 Sep 2012 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Tarsem Singh (JC-521034K), 25 Sep 2012+  
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from  
 05 Sep 2012 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Mast Ram (JC-521022P), 08 Oct 2012+  
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from  
 17 Sep 2012 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Daulat Ram (JC-520911A), 11 Oct 2012+  
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from  
 25 Sep 2012 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Ishwar Dass (JC-520884F), 01 Oct 2012

To be Sub Clk (SD)

Nb Sub (Clk) Naresh Kumar (JC-520860X), 01 Aug 2012

Nb Sub (Clk) Sridhar Mohanty (JC-520881N), 01 Sep  
 2012

Nb Sub (Clk) K Durga Prasad Pattnaik (JC-520861A),  
 01 Sep 2012

Nb Sub (Clk) Rakesh Kumar (JC-520882W), 01 Oct 2012

Nb Sub (Clk) Narayan Patro (JC-520906P), 01 Oct 2012

To be Sub (Musn)

Nb Sub (Musn) Karam Chand (JC-521205L), 08 Sep  
 2012+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from  
 15 Jun 2012 without effect on pay & allowances)

#### THE GARHWAL RIFLES

To be Sub Maj (GD)

Sub Mathura Prasad (JC-529552Y), 14 May 2012/01 May  
 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 May  
 2012 without effect on pay and allowances)

Sub Tula Ram (JC-529553F), 27 Jun 2012/01 Jun 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun  
 2012 without effect on pay and allowances)

Sub Brijmohan Singh (JC-529713W), 04 Jul 2012/01  
 Jul 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jul  
 2012 without effect on pay and allowances)

Sub Harish Singh (JC-530041F), 15 Aug 2012/01 Aug  
 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Aug  
 2012 without effect on pay and allowances)

Sub Dan Singh (JC-529516N), 01 Sep 2012

Sub Satal Singh (JC-530037Y), 14 Sep 2012/01 Sep  
 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Sep  
 2012 without effect on pay and allowances)

Sub Tejpal Singh Bhandari, SM (JC-529652K), 10 Sep  
 2012/01 Sep 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Sep  
 2012 without effect on pay and allowances)

Sub Dharmendra Singh (JC-529963X), 05 Oct 2012/01  
 Oct 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Oct  
 2012 without effect on pay and allowances)

Sub Jasmohan (JC-529710H), 01 Oct 2012

Sub Naresh Chandra (JC-529711L), 01 Oct 2012

To be Sub Maj (Clk SD)

Sub Clk (SD) Chhattapal Singh (JC-530020L), 02 Jul  
 2012/01 Jul 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jul  
 2012 without effect on pay and allowances)

To be Sub (GD)

Nb Sub Saber Singh (JC-530685F), 01 Jan 2012

Nb Sub Mahipal Singh (JC-530629H), 30 May 2012/  
 01 Apr 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2012  
 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Balwant Singh (JC-530701N), 10 Jul 2012/  
 29 Apr 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 29 Apr 2012  
 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Data Ram (JC-530757A), 26 May 2012/01 May  
 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2012  
 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kuldeep Singh Negi (JC-530732N), 23 May  
 2012/01 May 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2012  
 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Viveka Nand (JC-530579H), 04 Jun 2012/  
 05 May 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 05 May 2012  
 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Madan Singh (JC-530670Y), 01 Jun 2012

Nb Sub Bhagi Ram (JC-530654F), 08 Jul 2012/01 Jun  
 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2012  
 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Satish Chandra Ghildiyal (JC-530764W), 01  
 Jun 2012

Nb Sub Madho Singh (JC-530612P), 07 Aug 2012/01 Jun 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ram Singh (JC-530611M), 09 Jul 2012/01 Jun 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dayal Singh (JC-530624K), 09 Jul 2012/01 Jun 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kesar Singh (JC-530987N), 22 Aug 2012/01 Jun 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sumer Singh (JC-531006L), 22 Aug 2012/01 Jun 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Alam Singh (JC-531016P), 22 Aug 2012/01 Jun 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Amar Singh (JC-530877Y), 01 Aug 2012/01 Jun 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Satish Chandra (JC-530883M), 30 Aug 2012/01 Jun 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jagat Singh (JC-530681L), 05 Jul 2012/05 Jun 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 05 Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Harendra Singh (JC-530702W), 30 Jun 2012

Nb Sub Satish Singh (JC-530767K), 30 Jun 2012

Nb Sub Anand Singh (JC-530778W), 01 Jul 2012

Nb Sub Hari Prasad (JC-530957W), 01 Jul 2012

Nb Sub Ravindra Singh (JC-530660P), 09 Jul 2012/01 Jul 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Birendra Singh (JC-530695L), 09 Jul 2012/01 Jul 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Chandan Singh (JC-530630X), 17 Jul 2012/01 Jul 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Awatar Singh (JC-530777N), 01 Jul 2012

Nb Sub Rajendra Singh (JC-530893W), 01 Aug 2012/01 Jul 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Shiva Nand (JC-530722K), 01 Aug 2012

Nb Sub Keshar Singh (JC-530721F), 01 Aug 2012

Nb Sub Soban Singh (JC-530827N), 01 Aug 2012

Nb Sub Daleep Singh (JC-530779Y), 01 Aug 2012

Nb Sub Pooran Singh (JC-530780N), 01 Aug 2012

Nb Sub Bhupender Singh (JC-530853P), 01 Aug 2012

Nb Sub Pradeep Singh (JC-530855A), 01 Aug 2012

Nb Sub Laxman Singh (JC-530782Y), 07 Aug 2012/01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Chait Singh (JC-530899X), 01 Aug 2012

Nb Sub Hukam Chand (JC-530671F), 18 Sep 2012/01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dinesh Singh (JC-530857L), 26 Sep 2012/01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Radhe Shyam (JC-530848K), 01 Aug 2012

Nb Sub Ramesh Singh (JC-530807A), 01 Aug 2012

Nb Sub Digamber Singh (JC-530849M), 12 Sep 2012/01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Pradip Singh (JC-530683W), 19 Sep 2012/17 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 17 Aug 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Narendra Singh (JC-530751Y), 01 Sep 2012

Nb Sub Harinam Singh Gusain (JC-530697W), 01 Sep 2012

Nb Sub Pratap Singh Rawat (JC-530717Y), 15 Sep 2012/  
01 Sep 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2012  
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Birendra Singh Negi (JC-530856H), 01 Sep 2012

Nb Sub Bhawan Singh (JC-530645A), 01 Oct 2012

Nb Sub Daya Nand (JC-530894Y), 03 Oct 2012/  
01 Oct 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2012  
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Narendra Singh (JC-530786P), 01 Oct 2012

Nb Sub Narendra Singh Bhandari (JC-530689X), 01 Oct  
2012

Nb Sub Ramesh Chandra Nautiyal (JC-530567N), 25 Oct  
2012/01 Oct 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2012  
without effect on pay and allowances)

#### To be Sub (Clk SD)

Nb Sub (Clk SD) Hakam Singh Dhiman (JC-530592M),  
23 Jun 2012/01 Jun 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub (Clk SD) wef 01  
Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (Clk SD) Gajpal Singh (JC-530598N), 01 Aug  
2012/01 Jul 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub (Clk SD) wef 01  
Jul 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (Clk SD) Gopal Dutt Mamgain (JC-530614A),  
01 Jul 2012

Nb Sub (Clk SD) Harish Chandra Singh (JC-530687M),  
22 Aug 2012/01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub (Clk SD) wef 01  
Aug 2012 without effect on pay and allowances)

#### THE SIKH REGIMENT

##### To be Sub Maj

Sub Chanan Singh (JC-499096F), 01 Sep 2012

Sub Gurmit Singh, SC (JC-499264P), 01 Sep 2012

##### To be Sub

Nb Sub Manjit Singh (JC-499914X), 22 Aug 2012

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Aug  
2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Harjit Singh (JC-499900X), 01 Sep 2012

Nb Sub Sukhwinder Singh (JC-500077L), 01 Sep 2012

##### To be Sub Maj

Sub Swaran Singh, SM (JC-499147K), 01 Oct 2012

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Maj wef  
16 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Sub Bhupinder Singh (JC-498979Y), 01 Oct 2012

Sub Devender Singh, SM (JC-498962L), 01 Oct 2012

Sub Satnam Singh (JC-499282X), 01 Oct 2012

Sub Kuldip Singh (JC-499266A), 01 Oct 2012

##### To be Sub

Nb Sub Harinder Singh (JC-499908K), 04 Nov 2012

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Oct  
2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gurnam Singh (JC-500202K), 01 Nov 2012

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Oct  
2012 without effect on pay and allowances)

Sub Mohinder Singh (JC-500237A), 05 Oct 2012

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Oct  
2012 without effect on pay and allowances)

##### To be Sub Clk

Nb Sub Clk Gajendra Singh Shekhawat (JC-499942K),  
01 Nov 2012

##### To be Sub

Nb Sub Sukhpal Singh (JC-500080L), 16 Aug 2012

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jun  
2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sukhdev Singh (JC-499932A), 12 Sep 2012

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Aug  
2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kirpal Singh (JC-500214Y), 23 Aug 2012

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Aug  
2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sadhu Singh (JC-499938F), 24 Sep 2012

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Sep  
2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bhupinder Singh (JC-499826F), 01 Oct 2012

Nb Sub Manjit Singh (JC-499958P), 03 Oct 2012

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Oct  
2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jagjit Singh (JC-499962X), 03 Oct 2012

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Oct  
2012 without effect on pay and allowances)



Nb Sub Jaswinder Singh (JC-499963A), 13 Oct 2012

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Harbhajan Singh (JC-500017W), 01 Oct 2012

Nb Sub Kulbir Singh (JC-500073P), 01 Oct 2012

Nb Sub Vazir Singh (JC-500094L), 01 Oct 2012

#### THE KUMAON REGIMENT

##### To be Sub Maj

Sub Mahendra Singh, SM (JC-539522P), 01 Oct 2012

Sub Surender Kumar (JC-539882L), 06 Oct 2012/01 Oct 2012\*

\*(Granted ante date of seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Sub/Cik Dhillon Paramjit Singh Kashmir Singh (JC-539326P), 01 Jul 2012

Sub Mohan Chand Tewari (JC-539619A), 09 May 2012/01 May 2012\*

\*(Granted ante date of seniority in the rank of Sub Maj wef 01 May 2012 without effect on pay and allowances)

Sub Gopal Singh, SM (JC-539762M), 01 Aug 2012

Sub Diwan Singh (JC-539821N), 01 Sep 2012

Sub (RT) Khasti Ballabh Upadhyay (JC-158232Y), 01 Sep 2012

#### JAK RIF

##### To be Subs Sub Maj (GD)

Sub Pawan Kumar Sharma (JC-580194F), Jak Rif, 01 Oct 2012

Sub Ram Chander (JC-579853Y), Jak Rif, 01 Nov 2012

##### To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Romesh Lal (JC-580815P), Jak Rif, 01 Apr 2012

Nb Sub Sarat Thapa (JC-581012P), Jak Rif, 01 Aug 2012

Nb Sub Rakesh Rana (JC-580904N), Jak Rif, 01 Sep 2012

Nb Sub Baldev Chand (JC-580951L), Jak Rif, 01 Sep 2012

Nb Sub Pawan Kumar (JC-581297M), Jak Rif, 01 Sep 2012

Nb Sub Raj Kumar (JC-581016L), Jak Rif, 22 Sep 2012

Nb Sub Yashpal Singh (JC-581298P), Jak Rif, 05 Oct 2012

Nb Sub Lakhwinder Singh (JC-581140M), Jak Rif, 01 Nov 2012

##### To be Subs Sub Cik (SD)

Nb Sub Sulakhan Singh (JC-580396H), Jak Rif, 01 Oct 2012

##### To be Subs Sub Maj (GD)

Sub Mohan Lal (JC-580216P), Jak Rif, 01 Sep 2012

##### To be Subs Sub Maj Cik (SD)

Sub Birendra Singh (JC-580064Y), Jak Rif, 01 Oct 2012

##### To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Inder Singh (JC-581233F), Jak Rif, 01 Aug 2012

Nb Sub Shamsher Singh (JC-581048N), Jak Rif, 05 Aug 2012

Nb Sub Jugraj Singh (JC-580658N), Jak Rif, 01 Oct 2012

Nb Sub Aftab Ahmed (JC-580935N), Jak Rif, 01 Oct 2012

Nb Sub Heera Singh (JC-580948L), Jak Rif, 01 Oct 2012

Nb Sub Sudhir Pun (JC-580975P), Jak Rif, 01 Oct 2012

##### To be Subs Sub Maj (GD)

Sub Kuldeep Singh (JC-580278P), Jak Rif, 01 Sep 2012

Sub Pradeep Tamang (JC-580282X), Jak Rif, 01 Sep 2012

##### To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Dinesh Kumar (JC-580684P), Jak Rif, 01 Jan 2012

Nb Sub Lok Bahadur Gurung (JC-580686A), Jak Rif, 01 Mar 2012

Nb Sub Krishan Lal (JC-581046H), Jak Rif, 01 Aug 2012

Nb Sub Onkar Chand (JC-581193L), Jak Rif, 01 Aug 2012

Nb Sub Mukhtar Singh (JC-580657L), Jak Rif, 01 Sep 2012

Nb Sub Mejar Singh (JC-580730Y), Jak Rif, 01 Sep 2012

Nb Sub Balvinder Singh (JC-580782P), Jak Rif, 01 Sep 2012

Nb Sub Updesh Singh (JC-580899N), Jak Rif, 01 Sep 2012

Nb Sub Madan Lal (JC-581063H), Jak Rif, 01 Sep 2012

Nb Sub Kuldip Kumar (JC-581190X), Jak Rif, 01 Sep 2012

Nb Sub Davinder Singh Minhas (JC-581196Y), Jak Rif, 01 Sep 2012

Nb Sub Chiranji Lal (JC-581282K), Jak Rif, 01 Sep 2012

Nb Sub Krishan Kumar (JC-581008M), Jak Rif, 01 Dec 2011

Nb Sub Ashok Kumar (JC-580734P), Jak Rif, 01 Jan 2012

Nb Sub Rattan Chand (JC-581037F), Jak Rif, 01 Feb 2012

Nb Sub Yub Raj Singh Gurung (JC-580434N), Jak Rif, 01 Mar 2012

Nb Sub Jeewan Lal Basotra (JC-580792Y), Jak Rif, 01 Jun 2012

Nb Sub Shyam Lal (JC-580913P), Jak Rif, 01 Jun 2012

Nb Sub Beer Singh (JC-58079FP), Jak Rif, 09 Aug 2012

Nb Sub Khage Singh Rana (JC-580745F), Jak Rif, 01 Sep 2012

Nb Sub Amar Dass (JC-580942K), Jak Rif, 01 Sep 2012

Nb Sub Sunil Kumar Thapa (JC-580952N), Jak Rif, 01 Sep 2012

Nb Sub Jagdish Chand (JC-580954Y), Jak Rif, 01 Sep 2012

Nb Sub Rajender Kumar (JC-581011M), Jak Rif, 01 Sep 2012

Nb Sub Vinod Kumar Mehra (JC-581081L), Jak Rif, 01 Sep 2012

Nb Sub Hem Raj (JC-581103Y), Jak Rif, 01 Sep 2012

#### THE PUNJAB REGIMENT

##### To be Sub Maj

Sub Jaswant Singh (JC-429624H), 01 Jul 2012

Sub Gurcharan Singh (JC-429668A), 01 Jul 2012

Sub Gurjit Singh (JC-429286W), 01 Jun 2012

Sub Hira Lal (JC-430125A), 01 Aug 2012

##### To be Sub

Nb Sub Mohinder Singh (JC-430551N), 01 May 2012

Nb Sub Rajinder Singh (JC-430689H), 01 May 2012

Nb Sub Nirbhai Singh (JC-430614L), 01 Jun 2012

Nb Sub Major Singh (JC-430228Y), 01 Jul 2012

Nb Sub Jai Ram Chauhan (JC-430658H), 01 Jul 2012

Nb Sub Rakesh Chand (JC-430661H), 01 Jul 2012

Nb Sub Amarjit Singh Gill (JC-430314K), 01 Jun 2012

Nb Sub Sukhwinder Singh (JC-430444M), 01 Apr 2012

Nb Sub Prem Singh (JC-430584Y), 01 Apr 2012

Nb Sub Om Prakash (JC-430659L), 01 Jul 2012

Nb Sub Vazeer Singh (JC-430682Y), 01 Apr 2012

Nb Sub Kulwant Singh (JC-430692M), 01 Jun 2012

Nb Sub Ram Lal (JC-430702F), 01 Jun 2012

Nb Sub Baljit Singh (JC-430490F), 01 Jun 2012

Nb Sub Mohinder Lal (JC-430632N), 01 Jul 2012

Nb Sub Parminder Singh (JC-430688A), 01 May 2012

Nb Sub Ravinder Kumar (JC-430734K), 01 Jun 2012

Nb Sub Palwinder Singh (JC-430840H), 01 Aug 2012

#### BRIGADE OF THE GUARDS

##### To be Nb Sub

Hav Bhagirath Mal Jat (No. 13691467N now JC-404907Y), 01 Dec 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Dec 2011)

Hav Karan Pal (No. 13692707M now JC-404897A), 01 Jun 2012

Hav Judhisthir Dalapati (No. 13690490P now JC-404900P), 23 Jul 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Jul 2012)

Hav Udham Singh (No. 13693048P now JC-404902A), 05 Aug 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Jul 2012)

Hav Sarvesh Narain Singh (No. 13690510X now JC-404903H), 14 Aug 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 12 Jul 2012)

Hav S Hari Ramakrishnan (No. 13690576N now JC-404905N), 14 Aug 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Aug 2012)

Hav Netar Pal (No. 13693283N now JC-404906W), 05 Aug 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Aug 2012)

Hav Multan Singh (No. 13693407X now JC-404908F),  
11 Aug 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on  
pay and allces wef 01 Aug 2012)

Hav Kheema Singh Chouhan (No. 13693455X now JC-  
404909K), 20 Aug 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on  
pay and allces wef 01 Aug 2012)

Hav Surender Kumar (No. 13693534M now JC-  
404910Y), 11 Aug 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on  
pay and allces wef 01 Aug 2012)

Hav Rajesh Sharma (No. 13693056N now JC-404911F),  
07 Oct 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on  
pay and allces wef 01 Aug 2012)

Hav Shamsheer Singh (No. 13690086A now JC-404912K),  
23 Sep 2012

Hav Ajay Kumar (No. 13690139N now JC-404913M),  
25 Sep 2012

Hav Mehar Singh (No. 13690155L now JC-404915X),  
07 Nov 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on  
pay and allces wef 01 Oct 2012)

Hav Paramaram Bhati (No. 13690190N now JC-  
404916A), 19 Nov 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on  
pay and allces wef 01 Oct 2012)

Hav Abdul Gafur (No. 13693363L now JC-404917H),  
01 Oct 2012

Hav Daulat Ram (No. 13693474H now JC-404918L),  
01 Oct 2012

Hav Suraj Pal Singh (No. 13693498M now JC-404919N),  
01 Oct 2012

Hav Shivayogi Badiger (No. 13690982N now JC-  
404921L), 01 Nov 2012

Hav Vikram Singh Arya (No. 13691018Y now JC-  
404922N), 01 Nov 2012

Hav Ramesh Kumar (No. 13690698X now JC-404923W),  
20 Nov 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on  
pay and allces wef 01 Nov 2012)

Hav Ram Sajeewan Singh (No. 13693110W now JC-  
404924Y), 07 Nov 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on  
pay and allces wef 01 Nov 2012)

Hav Braj Bhushan Saw (No. 13690244K now JC-  
404925F), 29 Nov 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on  
pay and allces wef 01 Nov 2012)

Hav Ram Gopal Shukla (No. 13690272W now JC-  
404926K), 15 Dec 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on  
pay and allces wef 01 Nov 2012)

Hav Pranab Kumar Mandal (No. 13690886Y now JC-  
404927M), 14 Nov 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on  
pay and allces wef 01 Nov 2012)

Hav Dinesh Kumar Kuriyal (No. 13693607N now JC-  
404928P), 19 Nov 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on  
pay and allces wef 01 Nov 2012)

Hav Kiran Pal (No. 13695531X now JC-404929X),  
01 Nov 2012

Hav Satya Narain (No. 13691376K now JC-404930M),  
09 Dec 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on  
pay and allces wef 18 Nov 2012)

Hav Guljaree Ram (No. 13690422F now JC-404931P),  
26 Nov 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on  
pay and allces wef 23 Nov 2012)

Hav Ajoy Kumar Nath (No. 13691105M now JC-  
404934H), 01 Dec 2012\*

Hav Bansri Ram (No. 13692894W now JC-404935L),  
03 Dec 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on  
pay and allces wef 01 Dec 2012)

Hav Virendra Kumar Yadav (No. 13693113K now JC-  
404936N), 03 Dec 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on  
pay and allces wef 01 Dec 2012)

Hav Sher Singh (No. 13691788L now JC-404937W),  
01 Dec 2012

To be Nb Sub (RT)

Sep (AA) Sohan Kumar (No. 15422248K now JC-  
404901X), 30 Jun 2012

To be Nb Sub (Clk SD)

Hav (Clk SD) Warwade Rajesh Harish Chandra  
(No. 15359519Y now JC-404904L), 01 Aug 2012

Hav (Clk SD) Arjun Pandey (No. 8031969M now JC-  
404914P), 01 Oct 2012

Hav (Clk SD) Om Prakash Singh (No. 2887654L now JC-404920H), 01 Nov 2012

Hav (Clk SD) Bibekananda Halder (No. 4270466H now JC-404933A), 01 Dec 2012

### ARMOURED CORPS

#### To be Nb Ris

Dfr Ramavtar Gurjar (No. 15462650W now JC-246021Y), 01 Dec 2012

Dfr Haldhar Verma (No. 15462862F now JC-246045H), 01 Dec 2012

Dfr Ram Chander (No. 15462131N now JC-246067F), 01 Jan 2013

Dfr Upendra Kumar (No. 15461655H now JC-246080L), 01 Jan 2013\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Makhan Singh (No. 15464085H now JC-246081N), 01 Jan 2013\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Chintamani Palaria (No. 15464379W now JC-246082W), 01 Jan 2013

Dfr Udaya Bhaskara Reddy (No. 15468911P now JC-246084F), 01 Jan 2013

Dfr Gurmukh Singh (No. 15463401K now JC-246107X), 01 Jan 2013\*

Dfr Avay Kumar Tiwari (No. 15465547W now JC-246108A), 12 Dec 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Manoj MV (No. 15465729K now JC-246110X), 12 Dec 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Dilip Kumar Tiwari (No. 15466170K now JC-246111A), 12 Dec 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Devendra Kumar (No. 15467777H now JC-246112H), 12 Dec 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Rakesh R Pillai (No. 15466735K now JC-246120F), 01 Jan 2013

Dfr Sankaro Patro (No. 15464476N now JC-246121K), 01 Jan 2013.

Dfr Bhim Bahadur Subba (No. 15464969P now JC-246122M), 02 Jan 2013\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Bansh Bahadur (No. 15462747F now JC-246142A), 29 Dec 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Manoj Kumar (No. 15463027M now JC-246143H), 22 Dec 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Shive Kumar Verma (No. 1099584M now JC-246149K), 01 Jan 2013

Dfr Takhat Singh Shekhawat (No. 15461306Y now JC-246151F), 01 Jan 2013

Dfr Samineni Ram Babu (No. 15461287Y now JC-246152K), 01 Jan 2013

Dfr Gangadin Yadava (No. 15461368Y now JC-246153M), 01 Jan 2013

Dfr Debu Singh Rathore (No. 15463097L now JC-246164Y), 01 Jan 2013

Dfr Dhananjayan B (No. 15463908L now JC-246176N), 01 Jan 2013

Dfr Hanumant Halli (No. 15465141H now JC-246187A), 09 Jan 2013\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2013 without effect on pay and allowances)

Dfr Ram Krishan (No. 15462452K now JC-246190A), 08 Jan 2013\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2013 without effect on pay and allowances)

Dfr Chandrappa KB (No. 15462169X now JC-246191H), 07 Jan 2013\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2013 without effect on pay and allowances)

Dfr Ran Vijay Singh (No. 15463720W now JC-246194W), 09 Jan 2013\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2013 without effect on pay and allowances)

Dfr Sreenivasa Rao Kosinepalli (No. 15465186H now JC-246196F), 11 Jan 2013\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2013 without effect on pay and allowances)

Dfr Inderjit Singh (No. 15465402L now JC-246197K),  
11 Jan 2013\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2013 without effect on pay and allowances)

Dfr Rajit Ram Yadav (No. 15462155X now JC-246201F),  
07 Jan 2013\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr A Siva Kumar (No. 15462047N now JC-246204P),  
07 Jan 2013\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 09 Dec 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Ajayan P (No. 15464629M now JC-246206A),  
10 Jan 2013\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2013 without effect on pay and allowances)

Dfr Bonthu Tata Babu (No. 15464403F now JC-246207H), 10 Jan 2013\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2013 without effect on pay and allowances)

Dfr Harnek Singh (No. 15466362F now JC-246217M),  
16 Jan 2013\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 09 Dec 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Fernandes Paulu Alex (No. 1099666P now JC-246000H), 06 Dec 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Ashok Kumar (No. 15462752M now JC-246043X),  
01 Nov 2012

Dfr Virendra Kumar Dhaka (No. 15462858Y now JC-246044A), 01 Nov 2012

Dfr Manbir (No. 15463096H now JC-246049Y), 01 Nov 2012

Dfr Umesh Singh Bhadoriya (No. 15463162A now JC-246050N), 01 Nov 2012

Dfr Anil Kumar (No. 15461605X now JC-246065W),  
24 Nov 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Brijesh Kumarchauhan (No. 15461798H now JC-246070F), 01 Dec 2012

Dfr R Murugan (No. 15462988F now JC-246076H),  
12 Dec 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Ravi Kalva (No. 15462991F now JC-246088X),  
15 Dec 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 04 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Manoj Kumar (No. 15463077X now JC-246090P),  
01 Dec 2012

Dfr Sharanjit Singh (No. 15463827L now JC-246093H),  
05 Nov 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Ram Nibas Singh (No. 15462461M now JC-246104K), 03 Dec 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 24 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Ramesh Kumar (No. 15461376X now JC-246106P),  
01 Dec 2012

Dfr Kundan Singh Rajput (No. 15465540M now JC-246089A), 01 Dec 2012

Dfr Gopal Singh (No. 15463386A now JC-246114N),  
01 Dec 2012

Dfr Basudeb Ghosh (No. 15464750A now JC-246115W),  
14 Dec 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Sat Pal (No. 15463829W now JC-246116Y),  
10 Dec 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 13 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Ishwar Singh (No. 15464364N now JC-246117F),  
10 Dec 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Mohan Singh Thakur (No. 15462207H now JC-246118K), 11 Dec 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Satendra Kumar (No. 15461666P now JC-246119M),  
12 Dec 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Balkar Singh (No. 15461624H now JC-246138X),  
01 Jan 2013

Dfr Surender Singh Panwar (No. 15466183F now JC-246144L), 01 Jan 2013

Dfr Mukesh Kumar Yadav (No. 15463727A now JC-246156A), 01 Jan 2013

Dfr Rakesh Kumar (No. 15463790P now JC-246157H),  
01 Jan 2013

Dfr G Thirumalai Kannan (No. 15463002A now JC-246170M), 01 Jan 2013\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 09 Nov 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Anil Kumar (No. 15463789A now JC-246171P),  
01 Jan 2013\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr V Sathish (No. 15463770F now JC-246177W),  
01 Jan 2013

Dfr Mahendran P (No. 15463080X now JC-246172X),  
01 Jan 2013\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Ramarao Battala (No. 15463177H now JC-246173A),  
01 Jan 2013\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Subba Reddy Madhira (No. 15463773P now JC-246174H), 01 Jan 2013\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 11 Dec 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Sai Krishan (No. 15463856A now JC-246175L),  
01 Jan 2013

#### THE PRESIDENT'S BODYGUARD

To be Nb Ris/Clk (SD)

Dfr/Clk (SD) Ajay Kumar (No. 15470208A now JC-235076H), with effect from 01 Jan 2013

#### THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Subs Sub Maj [Clk (SD)]

Sub [Clk (SD)] Priya Vrata Arya (JC-420232N), 01 Dec 2012

To be Subs Sub [Clk (SD)]

Nb Sub [Clk (SD)] Dwarika Prasad Sharma (JC-421298W), 19 Dec 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub [Clk (SD)] Pankaj Kumar Das (JC-421299Y),  
01 Jan 2013

Nb Sub [Clk (SD)] Tarun Kanti Samanta (JC-421300H),  
01 Jan 2013

To be Nb Sub (Religious Teacher/Pandit)

Raghuvveer Panday (JC-422223L), 24 Nov 2012

SUBHABARTA KARMAKAR  
Under Secy

#### ARMY BRANCH

No. 140, dated 14th Mar 2013—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

#### ARMY EDUCATIONAL CORPS

To be Sub Maj

Sub Satyabir (JC-802906L), 02 Jul 2012@

Sub Girish Chandra Dobhal (JC-802912Y), 09 Jul 2012@

@(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Sub Arvinda Kumar (JC-802916P), 04 Jul 2012#

Sub Darshan Singh Bandral (JC-802919H), 03 Aug 2012#

Sub Kailash Bihari Dwivedi (JC-802950P), 16 Jul 2012#

\$(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Jul 2012 without effect on pay and allowances)

Sub Surinder Singh (JC-802951X), 01 Aug 2012

Sub Amrendra Kumar Jha (JC-802953H), 01 Aug 2012

Sub Ram Lakhan Dwivedi (JC-802961F), 01 Aug 2012

Sub Mohinder Singh (JC-802970H), 01 Aug 2012

Sub Ravi H N (JC-802971L), 01 Aug 2012

Sub Bhullan Singh (JC-802972N), 01 Aug 2012

Sub Suneel Dutt Tyagi (JC-802980M), 13 Sep 2012\$

Sub Shyam Singh Shekhawat (JC-802994M), 01 Sep 2012

\$(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

To be Sub

Nb Sub Hari Singh Gohil (JC-803762A), 12 Sep 2011@  
@ (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Radhay Sham (JC-803785F), 01 Dec 2011

Nb Sub Babu Ram Kashyap (JC-803817Y), 14 Aug 2012#

\$(Granted seniority in the rank of Sub wef 09 Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bagdal Khan (JC-803822K), 09 Feb 2012\$  
\$(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2012  
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Anil Kumar (JC-803849F), 16 Jul 2012&

Nb Sub Murari Lal Sharma (JC-803853K), 16 Jul 2012&

Nb Sub Sumer Singh (JC-803854M), 10 Jul 2012&

Nb Sub Vijendra Singh (JC-803855P), 30 Jul 2012&

Nb Sub Komesh Kumar (JC-803858H), 16 Jul 2012&

Nb Sub Narender Kumar Sharma (JC-803860A), 30 Jul  
2012&

Nb Sub Rabindra Nath Pradhan (JC-803861H), 25 Jul  
2012&

Nb Sub Dilbag Singh Chahal (JC-803863N), 01 Aug  
2012&

Nb Sub Chinmaya Ranjan Parija (JC-803865Y), 21 Aug  
2012&

Nb Sub Kundan Bhanot (JC-803868M), 02 Jul 2012&

Nb Sub Krishan Kumar (JC-803873X), 11 Jul 2012&

&(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2012  
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ratnakar Dash (JC-803875H), 02 Jul 2012%

Nb Sub Ravinder Singh (JC-803876L), 20 Jul 2012%

Nb Sub Bimal Kant (JC-803877N), 23 Jul 2012%

%(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2012  
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Satish Kumar (JC-803879Y), 01 Aug 2012

Nb Sub Anil Kumar Mishra (JC-803880N), 01 Aug 2012

Nb Sub Bhim Singh (JC-803881W), 20 Aug 2012\*

Nb Sub Punnose VJ (JC-803882Y), 01 Aug 2012

Nb Sub Ram Kishore Sharma (JC-803883F), 01 Aug  
2012

Nb Sub Jai Singh Shekhawat (JC-803884K), 01 Aug  
2012

Nb Sub Yogendra Singh (JC-803885M), 01 Aug 2012

Nb Sub Ram Awadh Singh (JC-803886P), 01 Aug 2012

Nb Sub Om Prakash (JC-803887X), 01 Sep 2012\*

Nb Sub Roshan Singh (JC-803888A), 01 Aug 2012

Nb Sub Brijender Abrol (JC-803889H), 06 Aug 2012\*

Nb Sub Vinod Kumar Singh (JC-803890X), 01 Aug 2012

Nb Sub/Clk Shyam Ji (JC-804213M), 01 Aug 2012

Nb Sub Vijaya Kumar (JC-803892H), 11 Sep 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from  
01 Aug 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sudershan Kumar (JC-803893L), 01 Sep 2012

Nb Sub Budhi Ballabh Dimri (JC-803894N), 01 Sep  
2012

Nb Sub Raj Bahadur (JC-803895W), 01 Sep 2012

Nb Sub Om Prakash (JC-803898K), 01 Sep 2012

To be Nb Sub

Hav Rajvir Singh (No. 9511459H now JC-804628F),  
01 Jun 2012

Hav Deshpande Rajesh Vinayak (No. 9511476H now  
JC-804639N), 01 Jun 2012

Hav Narendra Pratap Yadav (No. 9511492A now JC-  
804646K), 01 Jul 2012

Hav Onachan MA (No. 9511494L now JC-804648P),  
20 Jul 2012@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Shaka Mohd Naim (No. 9510587N now JC-  
804649X), 01 Aug 2012

Hav/Clk Sri Sanjeev Kumar Dubey (No. 9510588W now  
JC-804650M), 01 Aug 2012

Hav Ambujakshan N (No. 9511498F now JC-804651P),  
01 Aug 2012

Hav Shanmughan Pillai R (No. 9511499K now JC-  
804652X), 01 Aug 2012

Hav Murugesan P (No. 9511501W now JC-804653A),  
01 Aug 2012

Hav Suresh Kumar (No. 9511502Y now JC-804654H),  
01 Aug 2012

Hav Patil Balasaheb Tukaram (No. 9511507X now JC-  
804655L), 01 Aug 2012

Hav Sudhir Singh (No. 9511508A, now JC-804656N),  
01 Aug 2012

Hav Trilok Chand (No. 9511510X now JC-804657W),  
01 Aug 2012

Hav Anil Kumar Singh (No. 9511512H now JC-  
804658Y), 01 Aug 2012

Hav Dileep Kumar (No. 9511514N now JC-804659F),  
01 Aug 2012

Hav Vijay Kumar Pandey (No. 9511516Y now JC-  
804660W), 01 Aug 2012

Hav Ajit Singh (No. 9511517F now JC-804661Y),  
01 Aug 2012

Hav Jeetendra Kumar (No. 9511519M now JC-804662F),  
01 Aug 2012

Hav Satya Pal Singh (No. 9511527L now JC-804664M),  
01 Aug 2012

Hav Ramdeo Singh (No. 9511528N now JC-804665P),  
01 Sep 2012

Hav Ashok Kumar P (No. 9511529W now JC- 804666X),  
01 Sep 2012

Hav Gaikward Arvind Punjaba (No. 9511530L now JC-  
804667A), 01 Sep 2012

Hav Tungal Kumar (No. 9511531N now JC-804668H),  
01 Sep 2012

Hav Narendra Kumar (No. 9511536M now JC-804669L),  
01 Sep 2012

Hav Manoj Kumar Singh (No. 9511539A now JC-  
804670A), 01 Sep 2012

Hav Rajesh Kumar Mishra (No. 9511540P now JC-  
804671H), 01 Sep 2012

Hav Naba Kishore Mulia (No. 9511542A now JC-  
804672L), 01 Sep 2012

Hav Sunil Kumar (No. 9511543H now JC-804673N),  
01 Sep 2012

Hav Bijoy Kumar Das (No. 9511545N now JC-  
804674W), 01 Sep 2012

Hav/Clk Pradeep Kumar (No. 9510590N now JC-  
804675Y), 01 Oct 2012

PREM PARKASH  
Under Secy

#### DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 141, dated 14th March 2013—The President is  
pleased to make the following promotion :—

BF Sutar to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on  
probation for two years in DRDO with effect from 30 Apr  
2012 (F/N) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/-  
(PB-2) and Grade Pay Rs. 4,600/-.

RAJEEV RANJAN KHAN  
Dy Dir (Pers)

#### FINANCE DIVISION

No. 142, dated 14th March 2013—The President is  
please to retire Sukhpal Walia, PS Ministry of Defence  
(Finance) from Government Service with effect from  
31 Jan 2013 (AN) on attaining the age of superannuation.

The President is please to retire Umesh Chandra Pandey,  
PS Ministry of Defence (Finance) from Government Service

with effect from 31 Jan 2013 (AN) on attaining the age of  
superannuation.

RAVI KATYAL  
Asstt Financial Adviser (E)

#### ARMY BRANCH

No. 143, dated 15th March 2013—The President is  
pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

#### THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

#### CORRIGENDA

In the Ministry of Defence Notification No. 478 dated  
23 Sep 2011 published in the Gazette of India serial  
No. 43 dated 22 Oct 2011 under heading "Regular Army"  
Sub heading "Records The Mechanised Infantry Regiment"  
below :—

To be Subs Nb Sub (Clk)

For

Hav/Clk Chavan Vilas Kondiram (No. 14916808F now  
JC-422017F), 01 Jul 2011

Read

Hav/Clk Chavan Vilas Kondiram (No. 14916808F now  
JC-422017F), 01 Jul 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef  
01 Apr 2011 without effect on pay and allowances)

In the Ministry of Defence Notification No. 548 dated  
31 Oct 2011 published in the Gazette of India serial  
No. 48 dated 26 Nov 2011 under heading "Regular Army"  
Sub heading "Records The Mechanised Infantry Regiment"  
below :—

To be Subs Nb Sub (GD)

For

Hav Jagdale Prakash Madhav (No. 14918700H now JC-  
422026H), 14 Jul 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 18 Jun  
2011 without effect on pay and allowances)

Read

Hav Jagdale Prakash Madhav (No. 14918700H now JC-  
422026H), 14 Jul 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan  
2011 without effect on pay and allowances)

In the Ministry of Defence Notification No. 208, dated  
07 May 2012 published in the Gazette of India serial No.  
22 dated 02 Jun 2012 under heading "Regular Army" Sub  
heading "Records The Mechanised Infantry Regiment"  
below :—



## To be Subs Nb Sub (GD)

For

Hav Dinesh Kumar Singh (No. 14916713F now JC-422045N), 06 Sep 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Aug 2011 without effect on pay and allowances)

Read

Hav Dinesh Kumar Singh (No. 14916713F now JC-422045N), 06 Sep 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

For

Hav Abilash Kumar PS (No. 14916725W now JC-422048F), 22 Sep 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2011 without effect on pay and allowances)

Read

Hav Abilash Kumar PS (No. 14916725W now JC-422048F), 22 Sep 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

In the Ministry of Defence Notification No. 451 dated 04 Oct 2012 published in the Gazette of India serial No. 43 dated 27 Oct 2012 under the heading 'Regular Army' Sub heading 'Armoured Corps' below to be "To be Subs Risaldar Major' Page No. 1618 :—

## To be Subs Ris Maj

For

Ris Uday Bhan (JC-242709N), 15 Feb 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Read

Ris Uday Bhan (JC-242709N), 15 Feb 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Feb 2012 without effect on pay and allowances)

In the Ministry of Defence Notification No. 451 dated 04 Oct 2012 published in the Gazette of India serial No. 43 dated 27 Oct 2012 under the heading 'Regular Army' Sub heading 'Armoured Corps' below to be "To be Subs Ris' Page No. 1620 :—

## To be Subs Ris

For

Nb Ris Parimal Ghosh (JC-244510L), 23 Feb 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Feb 2012 without effect on pay and allowances)

Read

Nb Ris Parimal Ghosh (JC-244510L), 23 Feb 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 10 Feb 2012 without effect on pay and allowances)

SUBHABARTA KARMAKAR

Under Secy

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
 एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013  
 PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
 PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013